

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 1, 2011/श्रावण 10, 1933

No. 153]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 1, 2011/SRAVANA 10, 1933

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2011

फा.सं. 2.15015/30/2010 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, जहां तक वे खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 से संबंधित हैं, बनाने का प्रस्ताव करता है, और;

विनियमों का प्रारूप, भारत के राजपत्र, के असाधारण भाग 3, खण्ड 4 में तारीख 20 अक्टूबर, 2010 को पृष्ठ 1 से 776 में समेकित रूप में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उस तारीख, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, से 30 दिन की अवधि समाप्त होने से पहले, उससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र की प्रतियां 21 अक्टूबर, 2010 को जनता को उपलब्ध कराई गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों पर विनिर्धारित अवधि के अंदर पणधरियों से आक्षेप और सुझावों पर खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है।

अतः, अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,—

खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियमावली, 2011

अध्याय 1

साधारण

1.1 : संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1.1.1 : इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 कहे जा सकेंगे।

1.1.2 : ये विनियम 5 अगस्त, 2011 को या इसके पश्चात् प्रवृत्त होंगे।

1.2 : परिभाषाएँ

1.2.1 : इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

1. "से पहले उत्तम" से वह तारीख अभिप्रेत है जो किसी ऐसी कथित भंडारण परिस्थिति के अधीन, जिसके दौरान खाद्य पूर्णतः विपण्य रहता है और वह विनिर्दिष्ट क्वालिटी बनाए रखता है जिसके लिए उपलब्धित या स्पष्ट दावा किया गया है, की अवधि की समाप्ति को संज्ञापित करती है और उस तारीख के बाद भी खाद्य उपभोग के लिए पूर्णरूप से सुरक्षित हो, भले ही इसकी क्वालिटी कम हो गई हो। खाद्य पदार्थ को इस तारीख के पश्चात् भी विक्रय किया जा सके बशर्ते यह असुरक्षित न हो।

2. "विनिर्माण की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिस तारीख को खाद्य यथा वर्णित उत्पाद बनता है;

3. "पैक करने की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिस तारीख को खाद्य को किसी ऐसे अव्यवहित आधान में रखा जाता है जिसमें उसका अंततः विक्रय होगा;

4. "शिशु" से कोई ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसकी आयु 12 मास से अधिक न हो।

5. "लाट संख्यांक" या "कोड संख्यांक" या "बैच संख्यांक" से लाट संख्यांक या कोड संख्यांक या बैच संख्यांक दर्शित करने वाली, संख्या में या वर्णमाला में या संख्या या वर्णमाला दोनों के संयोजन में कोई संख्यांक अभिप्रेत है जिसके पूर्व "लाट संख्यांक" या "लाट" अथवा "कोड संख्यांक" या "कोड" अथवा "बैच संख्यांक" या "बैच" शब्द या कोई सुभेदक उपसर्ग है जिसके द्वारा खाद्य के विनिर्माण का पता किया जा सकता है और वितरण में उसकी पहचान की जा सकती है।

6. "मल्टीपीस पैकेज" से ऐसा पैकेज अभिप्रेत है जिसमें अलग-अलग या एक संपूर्ण पैकेज के रूप में फुटकर विक्रय के लिए आशयित समान मात्रा में अलग-अलग पैक की हुई और लेबल की गई एक ही वस्तु हो।

7. "मांसाहारी खाद्य" से एक ऐसा खाद्य अभिप्रेत है जिसमें एक संघटक के रूप में दुग्ध या दुग्ध उत्पादों को छोड़कर पक्षियों, ताजा जल अथवा समुद्री जीव-जंतुओं अथवा अंडों अथवा किसी पशु जनित उत्पाद सहित, कोई भी समग्र जीव-जंतु अथवा उसका भाग अंतर्विष्ट हो।

8. "पूर्व-पैकेज में रखे गए" या "पूर्व-पैक किए गए खाद्य" से ऐसा खाद्य अभिप्रेत है जो किसी प्रकार के पैकेज में ऐसी रीति में रखा जाता है कि उसकी अंतर्वस्तुओं को इसमें छेड़-छाड़ किए बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकता हो और जो ग्राहक को विक्रय करने के लिए तैयार है।

टिप्पण : इन विनियमों में जहां-कहीं भी "पैकेज" अभिव्यक्ति आती है, उसका अर्थ ऐसे पैकेज के रूप में लगाया जाएगा जिसमें पूर्व-पैक किया गया खाद्य पदार्थ है।

9. "प्रमुख प्रदर्शित पैनल" से आधान/पैकेज का वह भाग अभिप्रेत है जो ग्राहक द्वारा इसमें अंतर्विष्ट वस्तु का प्रदर्शन, विक्रय या क्रय की सामान्य और प्रचलित दशाओं में प्रदर्शित किया गया या प्रस्तुत किए गए या दिखाए जाने या ग्राहक द्वारा परीक्षा किए जाने आशयित हैं या संभाव्य है।

10. "तारीख तक - प्रयोग" या "अनुशंसित उपभोग की अंतिम तारीख" या "अवसान की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जो किसी ऐसी उल्लिखित भंडारण दशा में प्राक्कलित अवधि की समाप्ति को संज्ञापित करती है जिसके पश्चात् खाद्य में अधिसंभाव्यतः ऐसे गुण-धर्म नहीं रह जाएंगे जिनकी ग्राहक द्वारा सामान्यतः प्रत्याशा की जाती है और खाद्य विक्रय योग्य नहीं रह जाएगा।

11. "शाकाहारी खाद्य" से विनियम 1.2.1(7) में यथा परिभाषित मांसाहारी खाद्य से भिन्न कोई खाद्य पदार्थ अभिप्रेत है।

12. "थोक पैकेज" से ऐसा पैकेज अभिप्रेत है जिसमें -

(क) अनेक खुदरा पैकेज अंतर्विष्ट है और जहाँ ऐसे प्रथम उल्लिखित पैकेज बिचौलिये को विक्रय करने, सवितरित करने या परिदान करने के लिए आशयित हैं और किसी एक ग्राहक को सीधे विक्रय करने के लिए आशयित नहीं हैं; या

(ख) किसी बिचौलिये को थोक में विक्रय करने के लिए ऐसी खाद्य-वस्तु अंतर्विष्ट है जिससे कि ऐसा बिचौलिया ऐसी खाद्य-वस्तु को लघु मात्रा में ग्राहक को विक्रय करने, सवितरण करने या परिदान करने के लिए समर्थ हो सके।

अध्याय 2

पैक करने और लेबल लगाने

2.1 पैक करना

2.1.1 साधारण अपेक्षाएं :

(1) निम्नलिखित पदार्थ या धातु के बने हुए किसी पात्र या आधान का प्रयोग जब खाद्य को तैयार करने, पैक करने और भंडारकरण करने में किया जाए तब यह समझा जाएगा कि वह उसे मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त बनाता है :-

(क) आधान जिसमें जंग लगी हो;

(ख) इनेमिलित आधान जो कट गए हों और जिनमें जंग लगी हो;

(ग) तांबे या पीतल के आधार जिनमें उचित रूप से कलाई नहीं की गई हो;

(घ) एल्युमिनियम से बने आधान जो रासायनिक संयोजन में पात्रों के लिए ढलुआं एल्युमिनियम और एल्युमिनियम धातु के लिए विनिर्देश आई.एस. : 20 के या पात्रों के लिए पिटवां एल्युमिनियम और एल्युमिनियम धातु के लिए विनिर्देश आई.एस. : 21 के अनुसार नहीं है।

(2) प्लास्टिक सामग्री से बने ऐसे पात्र, जो निम्नलिखित भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं, और जिनका उपयोग आंशिक या पूर्ण रूप से खाद्य सामग्रियों को पैक करने के लिए या उनके भंडारकरण के लिए साधित्र या पात्र के रूप में किया जाता है, अर्थात्-

(i) भारतीय मानक : 10146 (खाद्य पदार्थों से संस्पर्शित पोलिथिलीन के लिए विनिर्देश);

(ii) भारतीय मानक : 10142 (खाद्य पदार्थों से संस्पर्शित स्टीरिन पोलिमेर के लिए विनिर्देश);

(iii) भारतीय मानक : 10151 (खाद्य पदार्थों से संस्पर्शित पालिविनिल क्लोराइड (पीवीसी) के लिए विनिर्देश);

(iv) भारतीय मानक : 10910 (खाद्य पदार्थों से संस्पर्शित पालिप्रापलिन के लिए विनिर्देश);

(v) भारतीय मानक : 11434 (खाद्य पदार्थों संस्पर्शित से आयोनोमर रेजिन के लिए विनिर्देश);

(vi) भारतीय मानक : 11704 एथिलीन ऐक्रिलिक अम्ल (ईए) सहबहुलक के लिए विनिर्देश;

(vii) भारतीय मानक : 12252 पॉली एल्कलीन टेरफथेलेट्स (पीईटी) के लिए विनिर्देश;

(viii) भारतीय मानक : 12247 नाइलॉन 6 बहुलक के लिए विनिर्देश;

(ix) भारतीय मानक : 13601 एथीलेन विनिलीड एसिडेट (ईवीए);

(x) भारतीय मानक : 13576 एथीलेन मेथा एक्रिलिक एसिड (ईएमए);

(xi) टिन और प्लास्टिक से बने आधानों का एक बार प्रयोग किए जाने के पश्चात् खाद्य तेलों और वसाओं को पैक करने के लिए पुनः प्रयोग नहीं किया जाएगा;

परंतु तांबे के बने पात्र या आधान यद्यपि उन पर उचित कलाई नहीं है, चीनी कन्फैक्शनरी या वाष्पशील तेलों को तैयार करने के लिए उपयोग किए जा सकेंगे और ऐसे पात्रों या आधानों का मात्र उपयोग चीनी कन्फैक्शनरी या वाष्पशील तेल को मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त बनाने वाला नहीं माना जाएगा।

(3) डिब्बाबंद उत्पादों के लिए पैक करने संबंधी साधारण अपेक्षाएं

- (i) सभी आधान मजबूती से पैक और मुहरबंद किए जाएंगे;
- (ii) डिब्बों का बाह्य भाग बड़ी खरोंचों जंग, छिद्रण और दरार विरूपण से मुक्त होगा;
- (iii) डिब्बे रिसाव रहित होंगे।

2.1.2 : उत्पाद की विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं

(1) दूध और दुग्ध उत्पादों को पैक करने संबंधी अपेक्षाएं

(क) ताप उपचारित दूध और दुग्ध उत्पाद के आधानों की बोतलबंदी भराई यांत्रिक रूप से की जाएगी और आधानों को यंत्रवत मुहरबंद किया जाएगा।

(ख) डेयरी उत्पादों के लिए लपेटन या पैकिंग का पुनः प्रयोग सिवाय वहां के नहीं किया जाएगा, जहां आधान इस प्रकार के हैं कि इन्हें भलीभांति साफ और विसक्रामित करने के पश्चात् पुनः प्रयोग किया जा सकता है।

(ग) मुहरबंदी भराई के अव्यवहित पश्चात् उस स्थापन में की जाएगी जिसमें पेय दूध या द्रव दुग्ध आधारित उत्पादों का अंतिम तापीय उपचार किया गया है और ऐसे मुहरबंदी यंत्र से की जाएगी जो यह सुनिश्चित करता है कि दूध किसी बाह्य जनित प्रतिकूल प्रभाव से संरक्षित है। मुहरबंदी यंत्र इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा कि जब एक बार आधान को खोल दिया गया है, तो खोले जाने का साक्ष्य स्पष्ट बना रहता है और जांच-पड़ताल करना आसान है।

(घ) पैक करने के अव्यवहित पश्चात् डेयरी उत्पादों को भंडारकरण के लिए बनाए गए कमरों में रखा जाएगा।

(2) खाद्य तेल/वसा के लिए पैक करने संबंधी अपेक्षाएं

खाद्य तेलों और वसाओं को पैक करने के लिए टिन के आधानों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त की गई चद्दर (प्लेट) समय-समय पर यथा संशोधित बी.आई.एस. मानक संख्यांक 1993 या 13955 या 9025 या 13954 में अंतर्विष्ट प्रथम श्रेणी गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप होगी और खाद्य तेलों और वसाओं को पैक करने के लिए टिन के आधानों की बाबत समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक सं. 10325 या 10339 के अनुरूप होगी।

(3) फलों और शाक उत्पादों के लिए पैक करने संबंधी अपेक्षाएं

(i) प्रत्येक आधान जिसमें कोई फल उत्पाद पैक किया जाता है, को इस प्रकार मुहरबंद किया जाएगा कि इसे अनुज्ञप्ति संख्यांक को नष्ट किए बिना न खोला जा सकता हो तथा बोतल के ऊपरी सिरे या गरदनी पर विनिर्माता का विशेष पहचान चिह्न प्रदर्शित किया जाए।

(ii) डिब्बाबंद फलों, रसों और शाकों के लिए उपयुक्त प्रकार की टिन की चद्दर से बने हुए सेनीटरी टाप डिब्बे प्रयोग किए जाएंगे।

(iii) बोतलबंद फलों, रसों और शाकों के लिए केवल ऐसे बोतल/मर्तबान प्रयोग किए जाएंगे जिन्हें वायुरुद्ध मुहरबंद किया जा सकता हो।

(iv) रसों, स्कवैशों, क्रश, शक्तिवर्धकों, शर्बतों, जौ के पानी और अन्य पेय मजबूती से मुहरबंद साफ बोतलों में पैक किए जाएंगे। जब इन उत्पादों को जमाकर और प्रशीतित रूप में विक्रय किया जाए तो इन्हें उपयुक्त कार्टूनों में पैक किया जाएगा। रसों और गूदों को जब सल्फाइट किया जाए तो इन्हें लकड़ी के पीपा में पैक किया जा सकेगा।

(v) परिरक्षी, जैम, जैली और मर्मलेड को पैक करने के लिए नए डिब्बे, साफ मर्तबान, नए कनस्तर, बोतल, चीनी मिट्टी के मर्तबान, एल्युमिनियम के आधानों का प्रयोग किया जा सकेगा और इन्हें मजबूती से मुहरबंद किया जाएगा।

(vi) अचार के लिए साफ बोतलें, मर्तबान, लकड़ी से बने पीपे, टिन के आधान जिसके अंदर 250 गेज का पालिथीन अस्तर लगा हो या रोगनयुक्त डिब्बे प्रयोग किए जाएंगे।

(vii) टमाटर की चटनी और सॉस के लिए साफ बोतलें प्रयोग की जाएंगी। यदि एसेटिक अम्ल के रूप में अम्लता 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होती है, तो ऊपर से खुलने वाले सेनीटरी डिब्बे प्रयोग किए जा सकेंगे।

(viii) डिब्बाबंद फल और छिलके तथा सूखे फल और सब्जियां कागज के थैलों, गते या लकड़ी के डिब्बों, नये टिनों, बोतलों, मर्तबानों, एल्युमिनियम और अन्य उपयुक्त अनुमोदित आधानों में पैक किए जा सकते हैं।

(ix) फल और शाक उत्पाद अपूर्णिक और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिकथित किए गए मानकों के समरूप अच्छी श्रेणी की गुणवत्ता की नम्य पैकिंग सामग्री में भी पैक किए जा सकते हैं।

(4) डिब्बाबंद मांस उत्पादों को पैक करने संबंधी अपेक्षाएं

(i) उपयुक्त प्रकार की टिन की चद्दर से बने नए सेनीटरी टॉप डिब्बे प्रयोग किए जाएंगे। डिब्बों पर अंदर की तरफ रोगन किया जाएगा और उन्हें भरने के पश्चात् वायुरुद्धतः मुहरबंद किया जाएगा। प्रयोग किया गया रोगन सल्फर प्रतिरोधक होगा और वसा या लवण में विलेय नहीं होगा।

(ii) सुअर मध्याह्न भोजन मीट (पोर्क लंचन मीट) को भरने के लिए प्रयोग किए जाने वाले डिब्बों को भरने से पहले आंतरिक रूप से खाद्य जिलेटिन, सुअर की चर्बी से आलेपित या वनस्पति से बने पार्चमेंट से आस्तरित किए जाएंगे।

(iii) वायुरुद्धतः मुहरबंद आधानों में पैक किए गए मांस उत्पादों को भंडारण और परिवहन की वाणिज्यिक दशाओं के अधीन खराब होने से बचाने के लिए प्रसंस्कृत किया जाएगा।

(5) पेय जल (पैकेजबंद और खनिज जल दोनों) को पैक करने संबंधी अपेक्षाएं :

यह भा. मा. 10146 के अनुरूप पालीएथिलीन (पी.ई.) या भा. मा. 10151 के अनुरूप पॉलिविनायल क्लोराइड (पी.वी.सी.) या भा. मा. 12252 के अनुरूप पालीएल्काईलीक टैरोफ्थालेट (पीईटी और पीबीटी) या भा. मा. 10910 के अनुरूप पाली प्रोपाएलीन या खाद्य श्रेणी पाली कार्बोनेट से बनाई गई स्वच्छ, जीवाणु रहित, रंगहीन, पारदर्शी और गड़बड़ न की जा सकने वाली बोतलों/आधानों में या जीवाणुरहित कांच की ऐसी बोतलों में जो जल के संभावित अपमिश्रण या संदूषण का निवारण करने के लिए उपयुक्त हों, पैक किया जाएगा।

प्लास्टिक मूल की सभी पैकेजिंग सामग्रियां विहित संपूर्ण अभिगामी और रंजक अभिगामी सीमाओं के अनुरूप होंगी।

2.2 : लेबल लगाना

2.2.1 : साधारण अपेक्षाएं

(1) प्रत्येक पूर्व-पैक किए गए खाद्य पर एक लेबल लगा होगा और जब तक इन विनियमों में अन्यथा उपबोधित न किया जाए, इन विनियमों के अधीन यथा अपेक्षित जानकारी अंतर्विष्ट होगी;

(2) ऐसी घोषणा की विशिष्टियां जिन्हें इन नियमों के अधीन लेबल पर विनिर्दिष्ट किए जाने की अपेक्षा की गई है, अंग्रेजी या हिंदी देवनागरी लिपि में होगी :

परंतु इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात इस विनियम के अधीन अपेक्षित भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा के प्रयोग को निवारित नहीं करेगी।

(3) पूर्व-पैक किए गए खाद्य को किसी लेबल पर या ऐसी किसी अन्य रीति में वर्णित या प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जो मिथ्या, भ्रामक या कपटपूर्ण है या इससे इसकी प्रकृति के बारे में किसी प्रकार से गलत प्रभाव पैदा होने की संभावना है;

(4) पूर्व-पैक किए गए खाद्यों पर लेबल ऐसी रीति में लगाया जाएगा कि वे आधान से अलग नहीं हो सकेंगे;

(5) लेबल पर की अंतर्वस्तुएं स्पष्ट, प्रमुख रूप से प्रदर्शित, अमिट तथा खरीद और प्रयोग की सामान्य दशाओं में ग्राहक द्वारा आसानी से पठनीय होंगी।

(6) जहां आधान को आवरण से आवृत किया गया है तो आवरण पर आवश्यक जानकारी दी जाएगी या आधान पर लगा लेबल बाह्य आवरण में से आसानी से पठनीय होगा और यह इसके द्वारा ढका हुआ नहीं होगा।

2.2.2 : पूर्व-पैक किए गए खाद्यों पर लेबल लगाना

ऊपर 2.2.1 में विनिर्दिष्ट साधारण लेबलिंग अपेक्षाओं के अलावा, प्रत्येक खाद्य पैकेज पर लगे लेबल पर निम्नलिखित जानकारी दी जाएगी, अर्थात्-

(1) खाद्य का नाम : खाद्य के नाम के अंतर्गत पैकेज में रखे गए खाद्य का व्यापार नाम या वर्णन भी आएगा।

(2) संघटकों की सूची : एकल संघटक खाद्य पदार्थों के सिवाय, संघटकों की सूची निम्नलिखित रीति में लेबल पर घोषित की जाएगी :

(क) संघटकों की सूची का एक उपयुक्त नाम दिया जाएगा, जैसे “संघटक” शब्द;

(ख) उत्पाद के विनिर्माण के समय, इसमें प्रयुक्त संघटकों के नाम, यथास्थिति, उनकी संरचना में भार या प्रबलता के अनुसार अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किए जाएंगे;

(ग) संघटकों की सूची में दिए गए संघटकों के लिए एक विनिर्दिष्ट नाम प्रयोग किया जाएगा;

परंतु संबंधित वर्गों के अंतर्गत आने वाले संघटकों के लिए निम्नलिखित वर्ग नामों का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात् -

वर्गों	वर्ग नाम
खाद्य वनस्पति तेल	खाद्य वनस्पति तेल/खाद्य
खाद्य वनस्पति वसा	वनस्पति वसा अथवा हाइड्रोजनीकृत या आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेल, दोनों।
पशु वसा/ दुग्ध वसा से भिन्न तेल	वसा के स्रोत का नाम दें। पोरक वसा, लार्ड और गोमांस वसा या इनके तत्व विनिर्दिष्ट नाम से घोषित किए जाएंगे।
रासायनिक रूप से रूपांतरित स्टाचों से भिन्न स्टाच	स्टाच
सभी प्रकार की मछलियां, जहां अन्य खाद्य के अवयव मछली के हैं, परंतु ऐसे खाद्य के लेबल और प्रस्तुति पर मछली की किस्म का उल्लेख नहीं किया जाता है।	मछली
सभी प्रकार के कुक्कुट मांस, जहां किसी अन्य खाद्य के अवयव ऐसे मांस से बने हैं, परंतु ऐसे खाद्य के लेबल और प्रस्तुति पर कुक्कुट मांस के विनिर्दिष्ट प्रकार का उल्लेख नहीं किया जाता है।	कुक्कुट मांस
सभी प्रकार के चीज, जहां चीज या चीज के मिश्रण से अन्य खाद्य के अवयव बने हैं, परंतु लेबल और प्रस्तुति पर किसी विनिर्दिष्ट प्रकार के चीज का उल्लेख नहीं किया जाता है।	चीज
सभी प्रकार के मसाले और गर्म मसाले तथा उनके तत्व	मसाले और गर्म मसाले या मिश्रित मसाले/ गर्म मसाले, जैसा समुचित हो
सभी प्रकार के गोंद या चूड़गम के लिए गोंद आधार के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली विनिर्मितियां	गोंद आधार (गम बेस)
निर्जल डेक्सट्रोस और डेक्सट्रोस मोनोहाइड्रेट	डेक्सट्रोस या ग्लूकोज
सभी प्रकार के कॅसिनेट	कॅसिनेट
सम्पीड़क, निष्कर्षित या परिष्कृत कोका बटर	कोका बटर
सभी क्रिस्टलीकृत फल	क्रिस्टलीकृत फल
एकमात्र रूप से दूध से व्युत्पन्न सभी दुग्ध और दुग्ध उत्पाद	दुग्ध ठोस
कोका बीन, कोका-निब, कोकामांस, कोका प्रेंस केक, कोका चूर्ण (परिष्कृत/अपरिष्कृत)	कोका ठोस

परंतु यह और कि पोरक वसा, लार्ड और बीफ वसा या इनके तत्व इनके विनिर्दिष्ट नाम से घोषित किए जाएंगे।

(घ) जहां कोई संघटक स्वतः दो या दो से अधिक संघटकों का उत्पाद है, ऐसे संयोजित संघटकों को संघटकों की सूची में घोषित किया जाएगा, और इसके अवयवों की एक सूची, कोष्ठक में, यथास्थिति भार या प्रबलता के अवरोही क्रम में संलग्न की जाएगी;

परंतु जहां कोई संयोजित संघटक, खाद्य के पांच प्रतिशत से कम है, वहां खाद्य योज्यक के सिवाय, संयोजित अवयवों की अवयव सूची को घोषित करना आवश्यक नहीं है।

(ड) मिलाया गया जल संघटकों की सूची में घोषित किया जाएगा सिवाय उन मामलों के जहां जल अवयव का ही भाग है जैसे लवण, सिरप या शोरबा, मिश्रित खाद्य में उपयोग किया गया है और अवयवों की सूची में घोषित किया गया है।

परंतु विनिर्माण के अनुक्रम में वाष्पित हो गए जल या अन्य वाष्पशील अवयवों को घोषित करने की आवश्यकता नहीं है;

परंतु यह और कि निर्जलित या संचनित खाद्य, जिन्हें जल मिलाकर पुनः निर्मित किया जाना आशयित है, के मामले में ऐसे पुनः निर्मित खाद्य के संघटकों को यथास्थिति, भार या प्रबलता के अवरोही क्रम में घोषित किया जाएगा और उत्पाद के संघटक, "जब लेबल के निर्देशों के अनुसार उत्पाद तैयार किया गया" जैसा कोई कथन अंतर्विष्ट होगा।

(च) मिश्रण या संयोजन के रूप में बचे गए खाद्य के प्रत्येक पैकेज पर खाद्य के विनिर्माण के समय प्रयुक्त किए गए संघटक (मिश्रित संघटकों या संघटकों के प्रवर्गों सहित) की प्रतिशतता प्रकट की जाएगी, यदि ऐसा अवयव -

(i) शब्दों या चित्रों या लेखाचित्रों द्वारा लेबल पर यथा मौजूद होने पर बल देता है यथा

(ii) खाद्य के नाम के अंतर्गत नहीं है किंतु खाद्य की विशेषता बताने के लिए अनिवार्य है और ग्राहकों द्वारा खाद्य में मौजूद होने की प्रत्याशा की जाती है, यदि संघटक की मात्रा संबंधी घोषणा से ग्राहक प्रमित होता है या उसे धोखा होता है।

परंतु जहां संघटक सुवासक के रूप में उपयोग किया गया है, वहां ऐसे अवयव की घोषणा करना अपेक्षित नहीं है :

परंतु यह और कि जहां यथा अपेक्षित लेबल पर निर्गमित कुल भार को उपदर्शित किया गया है या ऐसे खाद्य उत्पादों की दशा में, जहां इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट उपबंध किए गए हैं या जहां ग्राहक की जानकारी और प्रयोग के लिए किसी परिवेषण सुझाव का चित्रात्मक निरूपण किया गया है, तो ऐसे संघटक को प्रकट किया जाना अपेक्षित है।

परंतु यह भी कि किसी ऐसी बोतल की दशा में, जिसमें तरल दूध या ऐसा तरल पेय है जिसमें एक संघटक के रूप में दूध, मृदुपेय, कार्बनिकृत जल या परोसने के लिए तैयार फल पेय अंतर्विष्ट है, तो फल लुगदी और फल रस मिलाए जाने के बारे में घोषणाएं अनिवार्यतः बोतल के ऊपर की जाएंगी।

(3) पोषणकारी जानकारी - उत्पाद की प्रति 100 ग्राम या प्रति 100 मि.लि. या प्रति सर्विंग पोषणकारी जानकारी या पोषणकारी तथ्य निम्नलिखित को अंतर्विष्ट करते हुए लेबल पर दी जाएगी :

(i) ऊर्जा मान, कैकैल में;

(ii) प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट (शर्करा की मात्रा विनिर्दिष्ट की जाए) और वसा, ग्राम (ग्रा.) में या मि.लि.;

(iii) किसी ऐसे अन्य पोषक तत्व की मात्रा जिसके लिए कोई पोषण या स्वास्थ्य संबंधी दावा किया जाता है :

परंतु जहां वसायुक्त अम्लों की मात्रा या प्रकार या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा से संबंधित दावा किया जाता है, वहां संतृप्त (सेच्युरेटेड) वसायुक्त अम्लों, मोनोअनसेच्युरेटेड वसायुक्त अम्लों की मात्रा को ग्राम (ग्रा.) में घोषित किया जाएगा और परा-वसायुक्त अम्ल की मात्रा ग्राम (ग्रा.) में ऊपर अनुबंधित अन्य अपेक्षा के अतिरिक्त घोषित की जाएगी;

(iv) जहां कहीं विटामिनों और खनिजों की संख्यात्मक जानकारी घोषित की जाती है, तो इसे मीट्रिक इकाई में अभिव्यक्त किया जाएगा;

(v) जहां पोषण संबंधी घोषणा प्रति सर्विंग की जाती है, वहां मात्रा ग्राम (ग्रा.) या मिलीलीटर (मि.लि.) में निर्देश के लिए सर्व किए जाने वाले साधन के अतिरिक्त सम्मिलित की जाएगी;

परंतु पोषकों जैसे खनिज, प्रोटीन, विटामिन, धातु या उनके यौगिकों अम्लो अम्ल या एन्जाइम से संपूरित होने का दावा करने वाला खाद्य लेबल पर ऐसे मिलाए गए पोषकों की मात्रा देगा।

परंतु -

(i) ऐसे खाद्यों की दशा में पोषणकारी जानकारी देना आवश्यक नहीं हो सकेगा : जैसे अपरिष्कृत कृषि संबंधी वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, अनाज, मसाले, मसाला मिश्रण, जड़ी-बुटियां, गर्म मसाले, टेबुल नमक, चीनी, गुड़, या अपौष्टिक उत्पादों जैसे विलेय

चाय, काफी, विलेय काफी, काफी-कासनी मिश्रण, पैकेज बंद पेय जल, पैकेजबंद खनिज जल, एल्कोहाली पेय या फल और सब्जियाँ, प्रसंस्कृत और पूर्व पैक की गई वर्गीकृत सब्जियाँ, फल, सब्जियाँ और ऐसे उत्पाद जिनमें एकल संघटक है, अचार, पापड़, या तुरंत उपभोग के लिए परोसे जाने वाले खाद्य जैसे अस्पतालों, होटलों में या भोजन सेवा प्रदान करने वाले विक्रेताओं या हलवाईयों द्वारा परोसे जाते हैं, या थोक में भेजे गए ऐसे खाद्य जो उसी रूप में उपभोक्ताओं को विक्रय के लिए नहीं हैं।

(ii) लेबल पर घोषित किए गए पोषक तत्वों की मात्रा का पालन स्थापित परिपाटियों के अनुसार किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस उपबंध के प्रयोजन के लिए, विश्लेषण के समय, घोषित किए गए पोषक तत्वों की मात्रा की दशा में खाद्य के शेल्फ-लाइफ में रखे जाने भंडारकरण, और खाद्य की अंतर्निहित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सम्यक् विचार किया जाएगा;

(iii) ऐसे खाद्य, जिनमें हाइड्रोजनीकृत वनस्पति वसाओं या बेकरी खस्ताहार का प्रयोग किया जाता है, के लेबल पर यह घोषणा की जाएगी कि हाइड्रोजनीकृत वनस्पति वसाओं या बेकरी खस्ताहार प्रयोग किए गए हैं - अवसायुक्त पदार्थ अंतर्विष्ट हैं;

परंतु यह और कि 'अवसामुक्त' होने संबंधी कोई स्वास्थ्य दावा ऐसी दशाओं में किया जाएगा जहां ट्रांस वसा 0.2 ग्राम प्रति परोसे गए खाद्य से कम है और 'सच्यूरिटिड वसा मुक्त' का दावा ऐसे मामलों में किया जाएगा जहां सच्यूरिटिड वसा 0.1 ग्राम प्रति 100 ग्राम या 100 मि.लि. खाद्य से अधिक नहीं है।

विनियम 2.2.2(3) के प्रयोजन के लिए -

(i) "स्वास्थ्य दावे" से ऐसा अभ्यावेदन अभिप्रेत है जिसमें यह कथन, सुझाव या विवक्षा है कि किसी खाद्य या उस खाद्य के किसी संघटक और स्वास्थ्य के बीच कोई संबंध विद्यमान है और इसमें ऐसे पोषण संबंधी दावे भी सम्मिलित हैं जिनमें शरीर की वृद्धि, विकास और सामान्य क्रियाओं में पोषक तत्व की क्रियात्मक भूमिका का कुल खुराक के संदर्भ में शरीर की सामान्य क्रियाओं या जैविक क्रियाकलापों पर खाद्य या इसके संघटक के उपभोग के विशिष्ट फायदाप्रद प्रभाव से संबंधित अन्य क्रियाशील दावों का उल्लेख है और ऐसे दावे स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक सहयोग या क्रिया में सुधार करने या स्वास्थ्य को रूपांतरित अथवा स्वास्थ्य के परिरक्षित करने से संबंधित हैं, या कुल खुराक के संदर्भ में, किसी खाद्य या खाद्य के संघटक के उपभोग से रोग के जोखिम को कम करने, किसी रोग के बढ़ने के जोखिम को कम करने या स्वास्थ्य संबंधी दशा से संबंधित दावा किया गया है;

(ii) "पोषणकारी दावा" से ऐसा कोई अभ्यावेदन अभिप्रेत है जिसमें यह कथन, सुझाव या विवक्षा है कि खाद्य में ऐसे पोषक गुण हैं जो केवल ऊर्जा ही नहीं बढ़ाते अपितु इसमें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज भी हैं।

(iii) स्वास्थ्य दावे के संदर्भ में "जोखिम कमी" से किसी रोग या स्वास्थ्य संबंधी दशा के लिए किसी बड़े जोखिम कारक में महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तन होना अभिप्रेत है;

परंतु यह और कि तारीख 19 मार्च, 2009 को या इसमें इसके पश्चात् ऐसे पेयों को पैक करने के लिए विनिर्मित और प्रयोग की जाने वाली वापिस किए जाने योग्य कांच की नई बोतल पर ये घोषणाएं बोतल पर ही की जाएंगी।

(4) शाकाहारी / मांसाहारी संबंधी घोषणा -

(i) यह उपदर्शित करने के लिए कि यह उत्पाद मांसाहारी खाद्य है, प्रत्येक "मांसाहारी" खाद्य के पैकेज पर इसमें नीचे अनुबोधित अनुसार एक प्रतीक और रंग कोड द्वारा इस आशय की एक घोषणा की जाएगी। इस प्रतीक में भूरे रंग से भरा हुआ एक वृत्त होगा जिसका व्यास विनियम 2.2.2(4)(iv) में उल्लिखित तालिका में विनिर्दिष्ट न्यूनतम आकार से कम नहीं होगा जो वृत्त के व्यास के दुगने किनारे वाली भूरी बाह्य रेखा वाले वर्ग के भीतर होना चाहिए जैसा कि नीचे उपदर्शित है :



भूरा रंग

(ii) जहां किसी खाद्य पदार्थ में केवल अंडा एक मांसाहारी संघटक के रूप में अंतर्विष्ट होगा तो वहां विनिर्माता, या पैककर्ता अथवा विक्रेता उक्त प्रतीक के अलावा इस आशय की एक घोषणा करेगा।

(iii) यह उपदर्शित करने के लिए कि यह उत्पाद शाकाहारी खाद्य है, प्रत्येक "शाकाहारी" खाद्य के पैकेज पर इसमें नीचे अनुबोधित अनुसार एक प्रतीक और रंग कोड द्वारा इस आशय की एक घोषणा की जाएगी। इस प्रतीक में हरे रंग से भरा हुआ एक वृत्त होगा जिसका व्यास उल्लिखित तालिका में विनिर्दिष्ट न्यूनतम आकार से कम नहीं होगा जो वृत्त के व्यास के दुगने किनारे वाली भूरी बाह्य रेखा वाले वर्ग के भीतर होना चाहिए जैसा कि नीचे उपदर्शित है :



हरा रंग

(iv) लोगो का आकार

क्र. सं.	मूल प्रदर्शन पैनल का क्षेत्र	व्यास का न्यूनतम आकार मि.मी. में
1.	100 से.मी. वर्ग तक	3
2.	100 से.मी. वर्ग से ऊपर 500 से. मी. वर्ग तक	4
3.	500 से.मी. वर्ग से ऊपर 2500 से.मी. वर्ग तक	6
4.	2500 से. मी. वर्ग से ऊपर	8

यह प्रतीक -

(i) मूल प्रदर्शन पैनल पर विषम पृष्ठभूमि वाले पैकेज;

(ii) उत्पाद के नाम अथवा ब्रांड के बिल्कुल नजदीक;

(iii) लेबलों, आधानों, पम्फलेटों, इश्तहारों, किसी भी प्रचार माध्यम के विज्ञापनों पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

परंतु यह भी कि विनियम 2.2.2(4) के उपबंध खनिज जल या पैकेजबंद पेय जल या कार्बनिकृत जल या मादक पेय या तरल और चूर्णित दूध के बारे में लागू नहीं होंगे।

(5) खाद्य योज्यों (फुड एडिटिव्स) संबंधी घोषणा :

(i) खाद्य पदार्थों में साधारणतया प्रयोग के लिए अनुमत खाद्य योज्यों की सूचियों में अपने-अपने वर्गों के अंतर्गत आने वाले और प्रकट खाद्य योज्यों के लिए विशिष्ट नाम या मान्यताप्राप्त अंतरराष्ट्रीय संख्यात्मक पहचान सहित निम्नलिखित वर्ग नाम प्रयोग किए जाएंगे :

अम्लता विनायक, अम्ल, प्रतिपिण्डक, एंटीफोमिंग कारक, प्रतिआक्सीकारक, बल्किंग कारक, रंग, रंग अवरोधन कारक, पायसीकारक, पायसकारी लवण, फर्मिंग एजेंट, फ्लोर ट्रिटमेंट एजेंट, सुवास वर्धक, फेनरोधी कारक, जेलिंग एजेंट, ग्लेजिंग एजेंट, प्रच्छादक, परिरक्षी, प्रणोदक, रेजिंग एजेंट, स्थायीकारक, मधुकारक, प्रगाढ़क।

(ii) रंगों और/या सुवासों (फ्लेवर्स) का मिलाया जाना-

(क) बाहर से मिलाए गए रंजक पदार्थ का लेबल पर उल्लेख किया जाना - जहां किसी खाद्य पदार्थ में बाहर से रंजक पदार्थ मिलाया गया हो, वहां इस प्रकार रंजित खाद्य के किसी पैकेज से संलग्न लेबल पर संघटकों की सूची के ठीक नीचे मोटे अक्षरों में निम्नलिखित कथन संप्रदर्शित किया जाएगा, अर्थात् -

इसमें अनुज्ञात प्राकृतिक रंग है/हैं

या

इसमें अनुज्ञात सश्लिष्ट खाद्य रंग है/हैं

या

इसमें अनुज्ञात प्राकृतिक और सश्लिष्ट खाद्य रंग है/हैं

परंतु जहां खाद्य रंग का नाम या आई एन एम सं. के साथ ऐसा कथन संप्रदर्शित किया जाता है, तो संघटकों की सूची में उत्पाद में प्रयुक्त रंग का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

(ख) बाहर से मिलाए गए सुवासकों का लेबल पर उल्लेख किया जाना :

जहां किसी खाद्य पदार्थ में बाहर से कोई सुवासक मिलाया गया हो, वहां इस प्रकार सुवासित खाद्य के किसी पैकेज से संलग्न लेबल पर संघटकों की सूची के ठीक नीचे मोटे अक्षरों में निम्नलिखित कथन लिखा जाएगा :

इसमें मिलाया गया सुवासक अंतर्विष्ट है

(खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योग्य) विनियम, 2011 के (विनियम 3.1.10(1) के अनुसार सुवासक कारक का प्रकार विनिर्दिष्ट करें)

(ग) उत्पाद में रंग और सुवासक दोनों का उपयोग किए जाने की दशा में, इस प्रकार रजित और सुवासित खाद्य के किसी पैकेज से संलग्न लेबल पर संघटकों की सूची के ठीक नीचे मोटे अक्षरों में निम्नलिखित मिश्रित कथनों में से कोई कथन संप्रदर्शित किया जाएगा, अर्थात् :

इसमें अनुज्ञात प्राकृतिक रंग और मिलाए गए सुवासक है (हैं)

या

इसमें अनुज्ञात संश्लिष्ट खाद्य रंग और मिलाए गए सुवासक है (हैं)

या

इसमें अनुज्ञात प्राकृतिक और संश्लिष्ट खाद्य रंग और मिलाए गए सुवासक है (हैं)

परंतु कृत्रिम सुवासित पदार्थों की दशा में, लेबल पर सुवासक के सामान्य नाम की घोषणा की जाएगी, किंतु प्राकृतिक सुवासित पदार्थों या प्राकृतिक तद्रूप सुवासित पदार्थों की दशा में, सुवासकों के बर्ग नाम का लेबल पर उल्लेख किया जाएगा और यह विनियम 2.2.2(5)(ii) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट लेबल घोषणा की अपेक्षा का पालन करेगा।

टिप्पण: जब रंगों और/या सुवासकों के मिलाए जाने के बारे में कथन खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पादन और खाद्य योग्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.2.2(5)(ii) और विनियम 3.2.1 के अनुसार लेबल पर संप्रदर्शित किया जाता है, तो संघटकों की सूची में इन रंगों और/या सुवासकों के मिलाए जाने का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

परंतु यह और कि जब रंगों और सुवासकों की मिश्रित घोषणा की जाती है, तो प्रयुक्त रंग का अंतरराष्ट्रीय संख्यात्मक पहचान संख्यांक भी या तो संघटकों की सूची में या घोषणा के साथ उपदर्शित किया जाएगा।

परंतु यह भी कि संश्लिष्ट खाद्य रंगों की विनिर्मिति और मिश्रण के प्रत्येक पैकेज पर एक लेबल लगा होगा जिस पर कुल रंजक अंश की प्रतिशतता देते हुए एक घोषणा मुद्रित की हो।

(6) विनिर्माता का नाम और पूरा पता

(i) विनिर्माता और विनिर्माण इकाई का नाम और पूरा पता, यदि ये विभिन्न स्थानों पर अवस्थित हों और यदि विनिर्माता पैकर या बोतल में भरने वाला नहीं है तो, यथास्थिति, खाद्य के प्रत्येक पैकेज पर पैकिंग या बोतल में भरने वाली इकाई का नाम और पूरा पता घोषित किया जाएगा;

(ii) जहां किसी खाद्य वस्तु को किसी अन्य विनिर्माता या कंपनी के लिखित प्राधिकार के अधीन, उसके ब्रांड नाम से किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा विनिर्मित या पैक किया जाता है या बोतल में भरा जाता है, वहां लेबल पर, यथास्थिति, विनिर्माता या पैकिंग करने या बोतल में भरने वाली इकाई तथा साथ ही उस विनिर्माता या कंपनी की, जिसके लिए और जिसकी ओर से विनिर्मित अथवा पैक किया गया है या बोतल में भरा गया है, नाम और पूरा पता होगा;

(iii) जहां कोई खाद्य वस्तु भारत में आयात की जाती है वहां खाद्य पैकेज पर भारत में आयातकर्ता का नाम और पूरा पता भी होगा।

परंतु जहां भारत से बाहर निर्मित कोई खाद्य वस्तु भारत में पैक होती है या बोतल में भरी जाती है, वहां उस खाद्य वस्तु के पैकेज के लेबल पर खाद्य वस्तु के उद्गम देश का नाम और आयातकर्ता का नाम तथा उसका और भारत में पैकिंग या बोतल में भरे जाने के परिसर का पूरा पता होगा।

(7) शुद्ध परिमाण

(i) परिमाण का यथास्थिति, शुद्ध भार, मात्रा या आयतन प्रत्येक खाद्य के पैकेज पर घोषित की जाएगी; और

(ii) किसी तरल माध्यम में पैक किए खाद्य पर शुद्ध अंतर्वस्तुओं की घोषणा के अतिरिक्त, खाद्य के निष्कासित भार की घोषणा की जाएगी।

स्पष्टीकरण 1 - इस अपेक्षा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "तरल माध्यम" में जल, चीनी और नमक के जलीय घोल, फलों और सब्जियों के रस या सिरका या तो एकल रूप में या संयोजन में सम्मिलित हैं।

स्पष्टीकरण 2 - पैकेज में अंतर्विष्ट वस्तु की शुद्ध मात्रा की घोषणा करने के लिए आवरणों और पैक करने वाली सामग्रियों का भार अपवर्जित किया जाएगा।

(iii) जहां पैकेज में कन्फेशनरी की छोटी-छोटी वस्तुएं बड़ी संख्या में हों जिसमें से प्रत्येक अलग-अलग लपेटी गई हो और वस्तु के शुद्ध भार में से पैकेज की कन्फेशनरी की सभी वस्तुओं से लगे रैपरों का भार अपवर्जित करना युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं हो, वहां जिस पैकेज में ऐसी कन्फेशनरी है उस पर या उसके लेबल पर घोषित शुद्ध भार में ऐसे लगे रैपर का भार सम्मिलित किया जा सकता है, यदि ऐसे लगे रैपरों का कुल भार निम्नलिखित से अधिक नहीं है -

(क) जहां ऐसा लगा रैपर मोमी कागज है या ऐस कोई कागज है जिसमें की पत्ती मोमी है या एल्युमिनियम फायल है, 8 प्रतिशत; या

(ख) किसी भी अन्य कागज की दशा में, पैकेज में रखी कन्फेशनरी की सभी मदों के कुल भार का जिसमें से लगे हुए रैपर भार को घटाकर 6 प्रतिशत।

(8) लॉट/कोड/बैच पहचान

कोई बैच संख्यांक या कोड संख्यांक या लॉट संख्यांक जो कि ऐसा पहचान चिह्न है जिसके द्वारा खाद्य के विनिर्माण का पता किया जा सकता है और वितरण में उसकी पहचान की जा सकती है, लेबल पर दिया जाएगा।

परंतु ऐसे पैकेजों की दशा में, जिनमें डबल रोटी और दूध, जिसमें निर्जमित दूध भी सम्मिलित है, अंतर्विष्ट है, इस खंड के अधीन विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं हैं।

(9) विनिर्माण या पैक करने की तारीख

वह तारीख, मास और वर्ष जिसमें वस्तु विनिर्मित, पैक या पूर्व-पैक की गई है, लेबल पर दी जाएगी :

परंतु विनिर्माण, पैक करने या पूर्व-पैक करने का मास और वर्ष दिया जाएगा, यदि उत्पाद की "से पूर्व उत्तम तारीख" तीन मास से अधिक है;

परंतु यह और कि ऐसे पैकेज की दशा में जिसमें ऐसी वस्तु है जिसकी शेल्फ में रखने की अवधि तीन मास से कम है, वह तारीख, मास और वर्ष जिसमें वस्तु विनिर्मित या तैयार या पूर्व-पैक की जाती है, लेबल पर उल्लिखित किया जाएगा।

(10) से पूर्व उत्तम और तारीख तक उपयोग

(i) निम्नलिखित रीति में मोटे अक्षरों में मास और वर्ष, जिस तक उत्पाद उपभोग के लिए उत्तम है, अर्थात् -

“मास और वर्ष----- से पहले उत्तम”

या

पैक करने से ----- मास से पहले उत्तम”

या

“विनिर्माण से ----- मास से पहले उत्तम”

(टिप्पण : खाली स्थानों को भर जाए)

(ii) ऐसे पैकेज या बोतल की दशा में, जिसमें निर्जमित या अति उच्च ताप अभिक्रियित दुध, सोया दुध, सुवासित दुध है, ऐसे किसी पैकेज की दशा में, जिसमें डबल रोटी, ढोकला, भेलपुरी, पीजा, मालपुआ (डोनट), खोया, पनीर है या फल, सब्जी, मांस, मछली या अन्य वैसी ही वस्तु के, बिना डिब्बाबंद पैकेज, की दशा में घोषणा निम्नलिखित रीति से की जाएगी :-

“----- तारीख/मास/वर्ष से पहले उत्तम”

या

“पैक करने से ----- दिन पहले उत्तम”

या

“विनिर्माण से ----- दिन पहले उत्तम”

टिप्पणी :

(क) खाली स्थान भरे जाएं

(ख) मास और वर्ष संख्याओं में दिए जा सकेंगे

(ग) वर्ष दो अंकों में दिया जा सकेगा।

(iii) एस्पर्टेम के पैकेजों पर, तारीख से पहले उत्तम के अलावा तारीख तक प्रयोग/ सिफारिश की गई अंतिम उपभोग की तारीख/ पर्यवसान की तारीख दी जाएगी जो पैक करने की तारीख से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी;

(iv) शिशु दुग्ध अनुकल्प और शिशु आहार की दशा में, तारीख से पहले उत्तम के बजाय तारीख तक प्रयोग/ सिफारिश की गई उपभोग के लिए अंतिम तारीख/अवसान की तारीख दी जाएगी।

परंतु उपभोग के लिए तारीख से पहले उत्तम की घोषणा -

(i) शराब और लिकर

(ii) एल्कोहाली पेय पदार्थ जिनमें एल्कोहल की मात्रा 10 प्रतिशत या अधिक है, पर लागू नहीं होगी।

परंतु यह भी उपरोक्त उपबंध शुद्ध भार/शुद्ध अंतर्वस्तु, पोषणकारी जानकारी, विनिर्माता का नाम और पता, विनिर्माण की तारीख और "से पहले उत्तम" के सिवाय वापस की जाने योग्य कांच की बोतलों में कार्बनिकृत जल (सादा सोडा और दाब के अधीन कार्बन डाइआक्साइड से संसेचित वहनीय जल) के संबंध में लागू नहीं होंगे।

(11) आयात किए गए खाद्य के लिए उद्गम देश

(i) भारत में आयात किए गए खाद्य के लेबल पर उस खाद्य के उद्गम देश को घोषित किया जाएगा।

(ii) जब किसी खाद्य का किसी दूसरे देश में प्रसंस्करण किया जाता है जिससे खाद्य की प्रकृति परिवर्तित हो जाती है, तो लेबल लगाने के प्रयोजन के लिए उस देश को उद्गम देश होना समझा जाएगा जिस देश में प्रसंस्करण किया जाता है।

(12) प्रयोग करने के लिए अनुदेश :

(i) प्रयोग करने के लिए अनुदेशों को, जिसमें पुनर्गठन भी सम्मिलित है, खाद्य पदार्थ के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, यदि आवश्यक है, लेबल पर सम्मिलित किया जाएगा।

भाग 2.3 : घोषणा की रीति

विनियम 2.3.1 : साधारण शर्तें

(1) कोई जानकारी या चित्रित युक्ति लिखित, मुद्रित या लेखाचित्रित लेबल में प्रदर्शित की जा सकेगी बशर्ते यह इन विनियमों की अपेक्षाओं के विरोध में न हो।

(2) इन नियमों के अधीन पैकेज पर की जाने वाली प्रत्येक अपेक्षित घोषणा -

(i) सुपाठ्य, सुस्पष्ट, निश्चित, सरल और असंदिग्ध होगी,

(ii) आकार, संख्या और रंग में सहजदृश्य होगी,

(iii) यथा साध्य ऐसी शैली या इस प्रकार का अक्षरांकन होगा जो पैकेज पर उपयोग किए गए अन्य प्रकार, अक्षरांकन या ग्राफिक सामग्री से सुभिन्न विरोध में बड़े, स्पष्ट और सहजदृश्य रूप से प्रस्तुत किया गया हो और ऐसे रंग में पैकेज पर मुद्रित या उत्कीर्णित की गई होगी जो लेबल की पृष्ठभूमि से सहजदृश्य भिन्न रूप में हो।

परंतु -

(क) जहां कोई लेबल सूचना किसी शीशे या प्लास्टिक की सतह पर धूमिल, अश्विनीय या सांचे में ढाली गई हो या जहां ऐसी सूचना किसी पैकेज पर उच्चित्रित या छिद्रित की गई हो, वहां ऐसी सूचना को विषम रंगों में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा;

(ख) जहां पैकेज पर कोई घोषणा हस्तलिखित या हस्तआलेख में मुद्रित है, वहां ऐसी घोषणा स्पष्ट, असंदिग्ध और सुपाठ्य होगी।

(3) पैकेज पर कोई ऐसी घोषणा नहीं की जाएगी जिसे उसमें अंतर्विष्ट द्रव वस्तु के माध्यम से प्रदूषण अपेक्षित हो।

(4) जहां किसी पैकेज के लिए बाहरी आधान या आवरण की व्यवस्था की गई है, वहां ऐसे आधान या आवरण पर भी ऐसी सभी घोषणाएं, जिनका पैकेज पर होना अपेक्षित है, अंतर्विष्ट होंगी, सिवाए वहां के जहां ऐसा आधान या आवरण स्वयं पारदर्शी है और पैकेज पर की घोषणाएं ऐसे बाहरी आधान या आवरण के माध्यम से आसानी से पठनीय हैं।

(5) लेबलों पर मिथ्या या भ्रामक कथन नहीं होंगे : लेबल पर कोई ऐसा कथन, दावा, डिजाइन, युक्ति, फैंसी नाम या संक्षेपाक्षर नहीं होगा जो पैकेज में अंतर्विष्ट खाद्य से संबंधित या उक्त खाद्य की मात्रा या उसके पोषक मूल्य या उसके उद्भव के स्थान के संदर्भ में मिथ्या या भ्रामक है :

परंतु यह विनियम बालें, शर्करा बुल्स आई, क्रीम क्रेकर जैसी कन्फेक्शनरी, बिस्कुट और मिठाइयों के स्थापित कारबार या फैंसी नामों के संबंध में या अंतरराष्ट्रीय व्यापार पद्धति में विद्यमान जिंजर बीयर या गोल्ड स्पाट जैसे या अन्य नाम के बातिल जल के संबंध में लागू नहीं होगा।

2.3.2 प्रधान प्रदर्शन पैनल :

इन विनियमों के अधीन अपेक्षित जानकारी पैकेज या आधान के प्रधान प्रदर्शन पैनल पर दी जाएगी और ऐसी जानकारी निम्नलिखित रीति में दी जा सकेगी :

(क) सभी जानकारी एक साथ समूहित की जानी चाहिए और एक स्थान पर दी जाए।

या

पूर्व-मुद्रित जानकारी एक साथ समूहित की जाए और एक स्थान पर दी जाए; और

(ख) आन-लाइन जानकारी या जो पूर्व मुद्रित नहीं है, अन्य स्थान पर एक साथ समूहित की जाए।

(1) प्रधान प्रदर्शन पैनल का क्षेत्र

प्रधान प्रदर्शन पैनल का क्षेत्रफल निम्नलिखित से कम न हो -

(क) किसी आयताकार आधान की दशा में, अधिकतम क्षेत्रफल वाले ऐसे आधान के पैनल की ऊंचाई और चौड़ाई के गुणन द्वारा प्राप्त उत्पाद का चालीस प्रतिशत;

(ख) बेलनाकार या लगभग बेलनाकार, गोलाकार या लगभग गोलाकार, ओण्डाकार या लगभग अंडाकार आधान की दशा में, ऐसे आधान की ऊंचाई और औसत परिधि के गुणन द्वारा प्राप्त उत्पाद का बीस प्रतिशत; या

(ग) किसी अन्य आकार के आधान की दशा में, आधान के कुल सतही क्षेत्रफल का बीस प्रतिशत सिवाय उस स्थान का जहां कोई लेबल आधान पर सुरक्षित रूप से चिपकाया गया हो, ऐसे लेबल का सतही क्षेत्रफल आधान के कुल सतही क्षेत्रफल के दस प्रतिशत से कम न हो।

परंतु पांच घन सेंटीमीटर या कम की क्षमता वाले पैकेज की दशा में प्रधान प्रदर्शन पैनल पैकेज या आधान पर मजबूती से चिपका हुआ एक कार्ड या पट्टी होगी और उस पर इन विनियमों के अधीन अपेक्षित सूचना लिखी होगी।

2.3.3 घोषणा में संख्या की ऊंचाई

(i) प्रधान प्रदर्शन पैनल पर इन विनियमों के अधीन अपेक्षित किसी संख्या की ऊंचाई निम्नलिखित से कम नहीं होगी :

(क) यदि शुद्ध मात्रा, भार या घनत्व में घोषित की गई हो, नीचे सारणी-1 में यथादर्शित।

(ख) यदि शुद्ध क्वालिटी लंबाई, क्षेत्रफल या संख्या में घोषित की गई हो तो सारणी-2 में यथादर्शित।

सारणी - I

क्र.सं.	संख्यांक की न्यूनतम ऊंचाई	मि.मी. में संख्यांक की न्यूनतम ऊंचाई	
	भार या घनत्व में शुद्ध मात्रा	सामान्य मामला	जब आधान पर धूकिल, अभिरूपित, सांचे में ढाली गई या छिद्रित की गई
1.	50 ग्रा./मि.ली. तक	1	2
2.	50 ग्रा./मि.ली. से अधिक 200 ग्रा./ मि.ली. तक	2	4
3.	200 ग्रा./मि.ली. से अधिक 1 कि. ग्रा./ लिटर तक	4	6
4.	1 कि.ग्रा./लिटर से अधिक	6	8

सारणी - II जब शुद्ध क्वालिटी लंबाई, क्षेत्रफल या संख्या में है

क्र.सं.	भार/प्रधान प्रदर्शन पैनल का क्षेत्रफल	मि.मी. में संख्यांक की न्यूनतम ऊंचाई	
		सामान्य मामला	जब आधान पर धूकिल अभिरूपित, सांचे में ढाली गई या छिद्रित की गई
1.	100 सें. मी. तक वर्गाकार	1	2
2.	100 सें. मी. से अधिक वर्गाकार 500 सें. मी. तक वर्गाकार	2	4
3.	500 सें. मी. से अधिक वर्गाकार 2500 सें. मी. तक वर्गाकार	4	6
4.	2500 सें. मी. से अधिक वर्गाकार	6	8

(ii) 2.2 के अधीन घोषणा में के अक्षरों की ऊंचाई एक मि.मी. से कम नहीं होगी। जब धूकिल, अभिरूपित, सांचे में ढाले गए, उध्वित्रित या छिद्रित किए गए हों तो अक्षरों की ऊंचाई 2 मि.मी. से कम नहीं होगी।

परंतु किसी भी अक्षर या संख्या की चौड़ाई उसकी ऊंचाई के एक तिहाई से कम नहीं होगी, किंतु यह परंतुक संख्या "1" और अक्षर i, l और II की दशा में लागू नहीं होगा।

परंतु यह और कि 2.4 के अधीन अपेक्षित लेबल घोषणा की दशा में उत्पाद के उपयोग या तैयारी के लिए अनुदेश विनिर्दिष्ट करने वाली घोषणा की दशा के सिवाय, अक्षरों का आकार 3 मि.मी. (एमएम) से कम नहीं होगा।

2.4 : विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं/ लेबल लगाने की रीति पर निर्बंधन

2.4.1 : शिशु दुग्ध अनुकल्प और शिशु खाद्य पर लेबल लगाना

(1) ऐसे शिशु दुग्ध अनुकल्प/शिशु खाद्य पदार्थों को, जिनके मानक खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योग्य) विनियम, 2011 के अधीन विहित नहीं किए गए हैं, विक्रय के लिए विनिर्मित, विक्रय के लिए प्रदर्शित या विक्रय के लिए भंडारित ऐसे खाद्य पदार्थों और इनके लेबल का केवल प्राधिकरण से अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् किया जाएगा।

(2) इन नियमों में अंतर्विष्ट लेबल लगाने की अपेक्षाओं से संबंधित किन्हीं अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु खाद्य के प्रत्येक आधान या उसपर लगाए गए किसी भी लेबल पर स्पष्ट, सहजदृश्य और आसानी से पाठ्य रीति में बड़े अक्षरों में "महत्वपूर्ण सूचना" शब्द उपदर्शित किए जाएंगे और तीन निम्नलिखित विशिष्टियां उपदर्शित की जाएंगी, अर्थात् -

(i) बड़े अक्षरों में यह कथन कि "मां का दूध आपके बच्चे के लिए सर्वोत्तम है" प्रयोग किए गए अक्षर पांच मिलीमीटर से कम नहीं होंगे और ऐसा कथन, शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु खाद्य के प्रत्येक आधान या उस पर चिपकाए गए किसी लेबल, के मध्य भाग में होगा। मुद्रित या प्रयोग किए गए पाठ का रंग, यथास्थिति, लेबल, आधान की पृष्ठभूमि से भिन्न होगा। 'शिशु' खाद्य प्रस्तुति की केवल (छह माह की आयु के पश्चात् और दो वर्ष की आयु तक) उपदर्शित करते हुए एक कथन होगा;

(ii) यह कथन कि शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु का उपयोग, उसके उपयोग की आवश्यकता और उसके उपयोग की उचित पद्धति के बारे में केवल किसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह पर ही किया जाए;

(iii) यह चेतावनी कि शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु खाद्य, शिशु के पोषण का एकमात्र स्रोत नहीं है;

(iv) विनिर्माण की प्रक्रिया (उदाहरणार्थ स्प्रे शुष्कित), शिशु खाद्यों को छोड़कर, उपदर्शित करते हुए समुचित और स्वास्थ्यकर निर्मिति के लिए, जिसके अंतर्गत बर्तनों, बोतलों और चूचकों को साफ करना है, अनुदेश और अनुचित निर्मिति के स्वास्थ्य संबंधी परिसंकेतों के विरुद्ध निम्नानुसार चेतावनी उपदर्शित करने वाला एक कथन -

“चेतावनी/सावधान-शिशु खाद्य/शिशु दुग्ध अनुकल्प की ध्यानपूर्वक और स्वास्थ्यकर निर्मिति स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक आवश्यक है। उससे कम स्कूपों का प्रयोग न करें जितने का निदेश दिया गया है, क्योंकि तनु आहार से आपके शिशु को उतने पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, जितनी उसे आवश्यक है। उससे अधिक स्कूपों का प्रयोग न करें जितने का निदेश दिया गया है क्योंकि सांद्रित आहार से उतना पानी नहीं मिल पाएगा जितनी आपके शिशु को आवश्यक है।”

(v) उत्पाद के प्रति 100 ग्राम में पोषकों का लगभग संघटन, जिसके अंतर्गत सहस्र कैलोरियां/जौल में उसकी ऊर्जा मूल्य भी है;

(vi) भंडारण स्थिति, जिसमें विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन हो कि “किसी वायुरोधी आधान में ठंडे और शुष्क स्थान पर भंडारण करें” या ऐसा ही कथन (उत्प्लित अवधि के भीतर अंतर्वस्तु का उपयोग के लिए आरंभ करने के पश्चात् या समाप्ति तारीख जो भी पूर्वतर हो) किया गया हो।

(vii) आहार चार्ट और प्रयोग के लिए निदेश तथा बचे हुए खाद्य को फेंकने के लिए अनुदेश;

(viii) मापक स्कूप (स्तर या पुजित) के प्रयोग के लिए अनुदेश और प्रति स्कूप (पैक के साथ दिया जाने वाला स्कूप) मात्रा;

(ix) बैच संख्याएँ, इसके विनिर्माण की तारीख और वर्ष तथा अवसान की तारीख, उपदर्शित किया जाना;

(x) यदि शिशु दुग्ध अनुकल्प से भिन्न उत्पाद की बाबत यह दावा किया जाए कि उसमें उच्च क्वालिटी-प्रोटीन है तो उससे न्यूनतम प्रोटीन क्षमता अनुपात (पीईआर) 2.5 होगा।

(xi) खाद्य योग्यकों के विनिर्दिष्ट नाम, यदि अनुज्ञात हैं, समुचित वर्ग नामों के अतिरिक्त घोषित किए जाएंगे।

(3) विनियम 2.4.1(2) में निर्दिष्ट शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु खाद्य से संबंधित किसी आधान या लेबल पर शिशु या बच्चे या दोनों का चित्र नहीं होगा। इसमें शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु खाद्य के विक्रय में वृद्धि के लिए अभिकल्पित चित्र या अन्य चित्रित सामग्री या वाक्यांश नहीं होंगे। “मानवीकृत” या “मातृत्व” या वैसे ही कोई समरूप शब्द प्रयोग नहीं किए जाएंगे। शिशु खाद्य या शिशु दुग्ध अनुकल्प के पैकेज और/या लेबल में “पूर्ण प्रोटीन खाद्य”, “ऊर्जा आहार, पूर्ण आहार” या “स्वास्थ्य आहार” या ऐसे अन्य समरूप पदों को प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।

(4) समय से पूर्व (37 सप्ताह से पूर्व) जन्म लेने वाले शिशु/जन्म के समय कम वजन वाले शिशु (2500 ग्राम से कम) के लिए शिशु दुग्ध अनुकल्प के आधान या उन पर लगाए गए लेबलों पर निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी की जाएगी, अर्थात् -

(i) मध्य भाग में उत्पाद के नाम के साथ बड़े अक्षरों में समय से पूर्व (37 सप्ताह से पूर्व) जन्म लेने वाले शिशु/जन्म के समय कम वजन (2.5 कि.ग्रा. से कम) शब्द;

(ii) यह कथन कि “जन्म के समय कम वजन वाले शिशु दुग्ध अनुकल्प को, माँ का दूध पर्याप्त रूप में उपलब्ध होते ही चिकित्सीय सलाह से बंद कर दिया जाएगा”; और

(iii) बड़े अक्षरों में यह कथन “चिकित्सीय सलाह के अधीन ही दिया जाए”।

(5) ऐसे उत्पाद, जिसमें न तो दुग्ध है और न ही दुग्ध के व्युत्पन्न सम्मिलित हैं, सहजदृश्य रीति में “दुग्ध या दुग्ध उत्पाद नहीं है” लेबल लगाया जाएगा।

(6) लैक्टोज या लैक्टोज और सुक्रोस हज्म न कर सकने वाले शिशुओं के लिए शिशु दुग्ध अनुकल्प के आधान या उस पर चिपकाए गए लेबल पर बड़े अक्षरों में सहज दृश्य रूप में “लैक्टोज मुक्त या सुक्रोस मुक्त या लैक्टोज और सुक्रोस मुक्त” उपदर्शित होगा और यह कथन किया जाएगा कि इसे “चिकित्सीय सलाह से लिया जाएगा”, और निम्नलिखित कथन भी होंगे, अर्थात् -

“लैक्टोज मुक्त शिशु दुग्ध अनुकल्प का प्रयोग केवल अतिसार की दशा में लैक्टोज हज्म न करने के कारण किया जाना चाहिए।

लैक्टोज मुक्त/सुक्रोस मुक्त शिशु दुग्ध अनुकल्प को बंद कर दिया जाना चाहिए, यदि हज्म न करने के लक्षणों में कोई सुधार नहीं है।”

(7) गाय के/ भैंस के दुग्ध प्रोटीन या सोया प्रोटीन से एलर्जी होने वाले शिशुओं के लिए शिशु दुग्ध अनुकल्प के आधान या उस पर चिपकाए गए लेबल पर बड़े अक्षरों में सहजदृश्य रूप में "हाइपोएलर्जिनिक फार्मूला" उपदर्शित होगा और यह कथन किया जाएगा कि इसे "चिकित्सीय सलाह से लिया जाए।"

(8) घोषणा के चारों ओर रेखा होगी :

जहां "बच्चों के लिए अनुपयुक्त" शब्दों का प्रयोग किया जाना अपेक्षित है ।

(i) परिवर्ती रेखा की दूरी :

"बच्चों के लिए अनुपयुक्त" शब्दों के किसी भाग और इन शब्दों को घेरने वाली परिवर्ती रेखा के बीच की दूरी 1.5 मि. मी. से कम नहीं होगी।

2.4.2 : खाद्य तेल और वसा पर लेबल लगाना

(1) खाद्य तेल और वसा के पैकेज, लेबल या विज्ञापन पर "अतिपरिष्कृत", "अतिरिक्त परिष्कृत", "सूक्ष्म परिष्कृत", "दोहरा परिष्कृत", "परा परिष्कृत", "प्रति कोलेस्टेराल", "कोलेस्टेराल फाइटर", "हृदय के लिए प्रशमनकारी", "कोलेस्टेराल अनुकूल", "संतृप्त वसा मुक्त" जैसे पदों या ऐसे अन्य पदों का प्रयोग नहीं किया जाएगा जो उत्पाद की क्वालिटी की अतिशयोक्ति है।

(2) प्रत्येक आधान जिसमें विलायक निष्कर्षित तेल या बितैलित चूर्ण या खाद्य आटा विक्रय के लिए पैक किया जाता है, तो उत्पादक द्वारा विक्रय के समय उस पर अंग्रेजी या हिंदी (देवनागरी लिपि) में निम्नलिखित विशिष्टियां लगाई जाएंगी :

(i) नाम, व्यापार नाम, यदि कोई है, या यथास्थिति, विलायक निष्कर्षित तेल या बितैलित चूर्ण या खाद्य आटे का वर्णन;

(ii) ऐसे तेल की दशा में जो खाद्य वनस्पति तेल/ वनस्पति के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योग्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.2.6(1) में विनिर्दिष्ट "परिष्कृत" श्रेणी के विलायक निष्कर्षित तेलों के लिए गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप नहीं है, वहां लेबल पर 50 मि.मी. से अन्यून आकार की एक घोषणा निम्नलिखित रूप में की जाएगी;

(क) ऐसे तेलों की दशा में जो खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योग्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.2.6(1) में विनिर्दिष्ट "अर्ध-परिष्कृत" या "अपरिष्कृत-श्रेणी-1" श्रेणियों के तेल के लिए अपेक्षाओं का पालन करते हैं, "सीधे खाद्य उपभोग के लिए नहीं।"

(ख) ऐसे तेलों की दशा में जो ऊपर मद (क) के अधीन दी गई अपेक्षाओं का पालन नहीं करते हैं, "केवल औद्योगिक अखाद्य प्रयोगों के लिए"

(iii) उत्पादक का नाम और कारखाना विशिष्टियां;

(iv) आधान में अंतर्वस्तुओं का शुद्ध भार;

(v) बैच संख्यांक, विनिर्माण का मास और वर्ष

परंतु जहां विलायक निष्कर्षित तेलों की दुलाई थोक में रेल टैंक-बैगनों या सड़क टैंकरों में की जाती है, या जहां बितैलित चूर्ण या खाद्य आटे की थोक में या तो खत्ती (साइलो) में भंडारण के लिए दुलाई की जाती है या थोक नौभार के लिए पोत पर अंतरित किया जाता है, वहां पर्याप्त होगा, यदि उपर्युक्त विशिष्टियां संलग्न दस्तावेजों में दी जाती हैं।

(3) प्रत्येक आधान पर जिसमें विलायक पैक किया जाता है, इसके विनिर्माता या व्यापारी द्वारा विक्रय के समय भारतीय मानक संस्थान प्रमाणीकरण चिह्न लगाया जाएगा;

(4) प्रत्येक आधान पर जिसमें वनस्पति, मारगरीन, बेकरी खस्ताहार, सम्मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल, मिश्रित वसा, प्रैड और परिष्कृत वनस्पति तेल पैक किया जाता है, इन विनियमों में उपबंधित लेबल लगाने संबंधी अन्य अपेक्षाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित विशिष्टियां अंग्रेजी या हिंदी (देवनागरी लिपि में) होंगी;

(क) अंतर्वस्तुओं का नाम/वर्णन, "आर्जीमोन तेल से मुक्त";

(ख) अंतर्वस्तुओं का परिमाण/मात्रा।

(5) परिष्कृत वनस्पति तेल के प्रत्येक आधान पर निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात् :-

परिष्कृत (तेल का नाम) तेल

परंतु आयातित खाद्य तेल के आधान पर तेल के पहले "आयातित" शब्द भी अंकित होगा।

(6) प्रत्येक पैकेज पर जिसमें मूंगफली के तेल के साथ पामोलीन का सम्मिश्रण है, निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात् -

पामोलीन और मूंगफली के तेल का सम्मिश्रण पामोलीन

----- प्रतिशत मूंगफली

----- प्रतिशत

(7) प्रत्येक पैकेज पर जिसमें सरसों के तेल के साथ आयातित तोरिया के तेल का सम्मिश्रण है निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात्-

आयातित तोरिया के तेल और सरसों के तेल का सम्मिश्रण आयातित तोरिया तेल

----- प्रतिशत सरसों का तेल

----- प्रतिशत

(8) 30 प्रतिशत से अधिक चावल चोकर तेल से बनाए गए वनस्पति के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात्-

वनस्पति का यह पैकेज भार में 30 प्रतिशत से अधिक चावल चोकर तेल से बनाया गया है

(9) वसा (फैट) प्रैड के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात् -

दुग्ध वसा प्रैड -----

से पहले प्रयोग करें।

पैक करने की तारीख -----

भार के अनुसार कुल दुग्ध वसा पदार्थ का प्रतिशत -----

मिश्रित वसा प्रैड -----

से पहले प्रयोग करें।

पैक करने की तारीख -----

भार के अनुसार प्रतिशत -----

दुग्ध वसा पदार्थ -----

भार के अनुसार कुल दुग्ध वसा पदार्थ का प्रतिशत -----

वनस्पति वसा प्रैड

----- से पहले प्रयोग करें। पैक करने की तारीख -----

भार के अनुसार कुल वसा पदार्थ का प्रतिशत -----

(10) ऐसे पैकेज पर, जिसमें वनस्पति तेलों में अन्नाटो रंग हो, निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात्-

प्रयुक्त ----- (तेल/तेलों का नाम) तेल में अन्नाटो रंग

(11) प्रत्येक पैकेज पर, जिसमें खाद्य तेलों का अधिमिश्रण है, निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात्-

इस सम्मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल में निम्नलिखित का अधिमिश्रण है :

- (i) ----- भार के अनुसार ----- प्रतिशत
(ii) ----- भार के अनुसार ----- प्रतिशत

(खाद्य वनस्पति तेल का नाम और प्रकृति अर्थात् कच्चा या परिष्कृत फर्म)

पैक करने की तारीख -----

उत्पाद के नाम के साथ सामने मध्य पैनल पर काले-मोटे अक्षरों में निम्नलिखित घोषणा भी होगी.-

खुला विक्रय न किया जाए

2.4.3 : अनुज्ञात खाद्य रंगों पर लेबल लगाना

(1) कोई भी व्यक्ति किसी खाद्य में या उस पर प्रयोग के लिए अनुज्ञात सश्लिष्ट खाद्य रंग का तब तक विक्रय नहीं करेगा जब तक कि उसके आधान पर निम्नलिखित विशिष्टियों का उल्लेख करने वाला लेबल न लगा हो :

- (i) "खाद्य रंग" शब्द
(ii) रंजक पदार्थ के रासायनिक वाणिज्यिक नाम और रंग इंडेक्स।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी अनुज्ञात सश्लिष्ट खाद्य रंगों के सम्मिश्रण का खाद्य में या उस पर प्रयोग के लिए तब तक विक्रय नहीं करेगा जब तक कि उसके आधान पर निम्नलिखित विशिष्टियों का उल्लेख करने वाला लेबल न लगा हो :

- (i) "खाद्य रंग मिश्रण" शब्द
(ii) सम्मिश्रण में अंतर्विष्ट रंजक पदार्थ के रासायनिक और सामान्य या वाणिज्यिक नाम और रंग इंडेक्स।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी खाद्य पदार्थ में या उस पर प्रयोग के लिए किसी अनुज्ञात सश्लिष्ट खाद्य रंग की निर्मिति का विक्रय तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसके ऊपर निम्नलिखित विशिष्टियों का उल्लेख करने वाला लेबल न लगा हो :

- (i) "खाद्य रंग निर्मिति" शब्द
(ii) निर्मिति में प्रयोग किए गए विभिन्न संघटकों के नाम।

2.4.4 : किरणित खाद्य पर लेबल लगाना

किरणित खाद्य : ऐसे खाद्य के लेबल पर जिसे आयनित विकिरण से उपचारित किया गया है, उपचार को उपदर्शित करते हुए खाद्य के नाम के नजदीक एक लिखित कथन होगा।

इसके अतिरिक्त किरणित खाद्य के सभी पैकेजों पर निम्नलिखित घोषणा और लोगो होगा, अर्थात् -

किरणित पद्धति द्वारा प्रसंस्कृत
किरणन की तारीख -----



किरणन इकाई का अनुज्ञप्ति सं. -----
किरणन का प्रयोजन -----

2.4.5 : अन्य उत्पाद पर विनिर्दिष्ट लेबल लगाने संबंधी अपेक्षाएं

(1) काफी-कासनी मिश्रण : (i) प्रत्येक पैकेज जिसमें काफी और कासनी का मिश्रण है, एक लेबल लगा होगा जिस पर निम्नलिखित घोषणा मुद्रित होगी :

कासनी सम्मिश्रित काफी इस मिश्रण में निम्नलिखित है

काफी ----- प्रतिशत

कासनी ----- प्रतिशत

(ii) प्रत्येक पैकेज पर, जिसमें तत्काल काफी-कासनी मिश्रण है, एक लेबल लगा होगा जिस पर निम्नलिखित घोषणाएं मुद्रित होंगी :

काफी और कासनी के मिश्रण से बनी तत्काल काफी-कासनी मिश्रण

काफी----- प्रतिशत

कासनी----- प्रतिशत

(2) संचनित दूध या शुष्कित (सूखा) दूध -

ऐसे प्रत्येक पैकेज पर जिसमें संचनित दूध या शुष्कित (सूखा) दूध हो एक ऐसा लेबल लगेगा जिस पर निम्नलिखित में से ऐसी एक घोषणा जो लागू हो या सारतः वैसे ही आशय की ऐसी अन्य घोषणा मुद्रित होगी जो राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञात की जाए।

(i) संचनित दूध (अमधुरित) की दशा में :

संचनित दूध (अमधुरित)

(वाष्पित दूध)

इस टिन में (x)-----

----- लिटर टोंड दूध के समतुल्य है

(ii) संचनित दूध (मधुरित) की दशा में :

संचनित दूध (मधुरित)

इस टिन में मिलाई गई

चीनी सहित (x)-----

----- लिटर टोंड दूध के समतुल्य है

(iii) संचनित मखनिया दूध (अमधुरित) की दशा में :

संचनित मखनिया दूध (अमधुरित)

(वाष्पित मखनिया दूध)

इस टिन में (x)-----

----- लिटर मखनिया दूध के समतुल्य है

(iv) संघनित मखनिया दूध (मधुरित) की दशा में :

संघनित मखनिया दूध (मधुरित)

इस टिन में मिलाई गई चीनी सहित (x)-----

----- लिटर मखनिया दूध के समतुल्य है

(v) संघनित दूध (मधुरित और सुरुचित) की दशा में :

यह----- से सुरुचित किया गया है।

यह छह मास से कम आयु के बच्चों के
उपयोग के लिए नहीं है।

(vi) अति-उच्च तापमान (यूएचटी) अभिक्रिया द्वारा निर्जीवाणुकृत संघनित दुग्ध/संघनित मखनिया दुग्ध (अमधुरित) की दशा में :

यह यूएचटी प्रक्रिया द्वारा निर्जीवाणुकृत किया गया है

(vii) दुग्ध चूर्ण की दशा में :

दुग्ध चूर्ण

इस टिन में (x) -----

लिटर टोंड दूध के समतुल्य है।

(viii) दूध चूर्ण की दशा में जिसमें लैसिथिन अंतर्विष्ट है :

इस पैकेज में दुग्ध चूर्ण में लैसिथिन अंतर्विष्ट है

(ix) भागत: मखनिया दुग्ध चूर्ण की दशा में :

भागत: मखनिया दुग्ध चूर्ण

इस टिन में ----- प्रतिशत दूध वसा

वाला (x)----- लिटर भागत:

मखनिया दूध के समतुल्य है।

(x) मखनिया दुग्ध चूर्ण की दशा में :

मखनिया दुग्ध चूर्ण

इस टिन में (x) ----- लिटर

मखनिया दूध के समतुल्य है।

(3) प्रत्येक मामलों में इस घोषणा को (x) के स्थान पर शब्दों और अंकों में समुचित संख्या लिखकर पूरा किया जा सकेगा।
उदाहरणार्थ "डेढ़ (1½)" किसी भी भाग को, यथास्थिति, उसका आठ चौथाई, या आधा के रूप में प्रकट किया जाएगा।

(4) संचनित दूध या शुष्कित (सूखा) दूध अंतर्विष्ट करने वाले किसी पैकेज पर विहित घोषणा में अंतर्विष्ट तुल्यता के कथनों के प्रति या “मशीन का मखनिया”, “मखनिया” या “बच्चों के लिए अनुपयुक्त” शब्दों पर कोई टिप्पणी, उनके स्पष्टीकरण या उनके प्रति कोई निर्देश, तनुकरण के बारे में निम्नलिखित अनुदेशों के सिवाय, नहीं लिखा जाएगा :

“इस पैकेज की अंतर्वस्तु की सहायता से, यथास्थिति, टोंड दूध या मखनिया दूध के संयोजन से अन्यून तरल तैयार करने के लिए इस संचनित दूध या शुष्कित (सूखा) दूध के आयतन के एक भाग में पानी का आयतन के (यहां भाग संख्या लिखें) मिलाएं।”

मिठासयुक्त संचनित दुग्ध और इसी प्रकार के अन्य उत्पादों पर जो शिशु आहार के लिए उपयुक्त नहीं है ऐसा कोई अनुदेश नहीं होगा कि उसका शिशु आहार के लिए रूपांतरण किया जा सकता है।

(5) जहां संचनित मखनिया दूध या शुष्कित (सूखा) मखनिया दूध के पैकेज के लेबल पर अंतर्वस्तु के वर्णन या अंतर्वस्तु के वर्णन के भाग के रूप में “दूध” शब्द लिखा जाता है वहां उसके ठीक पूर्व या बाद में यथास्थिति, “मशीनी मखनिया” या “भागतः मखनिया” शब्द रखे जाएंगे।

(6) तरल दूध : तरल दूध की बोतलों के ढक्कनों/पाउच/टेटरापैक पर उनमें भरे हुए दूध का स्वरूप स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाएगा। यह संकेत या तो पूर्णरूपेण होगा या नीचे दर्शित संक्षेपाक्षरों द्वारा किया जा सकेगा :

- (i) भैंस के दूध का संकेत ‘भैं’ अक्षर से किया जा सकेगा;
- (ii) गाय के दूध का संकेत ‘गा’ अक्षर से किया जा सकेगा;
- (iii) बकरी के दूध का संकेत ‘ब’ अक्षर से किया जा सकेगा;
- (iv) मानकीकृत दूध का संकेत ‘मा’ अक्षर से किया जा सकेगा;
- (v) टोण्ड दूध का संकेत ‘टो’ अक्षर से किया जा सकेगा;
- (vi) डबल टोण्ड दूध का संकेत ‘डटो’ अक्षर से किया जा सकेगा;
- (vii) सपरेटा दूध का संकेत ‘स’ अक्षर से किया जा सकेगा;

(viii) पास्तरीकृत दूध का संकेत ‘पा’ अक्षर से किया जा सकेगा जिसके बाद दूध का वर्ग भी लिखा जाएगा। उदाहरण के लिए पास्तरीकृत भैंस के दूध पर ‘पाभैं’ अक्षर होगा।

(ix) अनुकल्पतः दूध के पैक/ढक्कन/बैग के रंग, उनमें भरे दूध की प्रकृति को उपदर्शित करने वाले होंगे। रंगों के वर्गीकरण को ऐसे स्थानों पर संप्रदर्शित किया जाएगा जहां दूध का विक्रय/भंडारण किया जाता है या उसे विक्रय के लिए प्रदर्शित किया जाता है, परंतु यह तब जब कि उसके बारे में संबद्ध (स्वास्थ्य) प्राधिकारी के साथ-साथ प्रज्ञापित कर दिया गया हो सूचना के अन्य साधनों, जैसे कि प्रेस का उपयोग भी किया जा सकेगा।

(7) आईसक्रीम - आईसक्रीम या मिश्रित आईसक्रीम का प्रत्येक व्योहारी जो सड़क पर या लोक समागम के किसी अन्य स्थान पर किसी स्टाल से या गाड़ी से, ठेला या अन्य यान से या किसी टोकरी, फायल, ट्रे या अन्य आधान से जिसको किसी स्टाफ या यान के बिना प्रयोग किया जाता है, आईसक्रीम या आईस कैंडी विक्रय करता है या विक्रय के लिए प्रस्थापित करता है या अभिदर्शित करता है तो वह विनिर्माता, यदि कोई हो, के नाम और पते के साथ-साथ अपना नाम और पता, यथास्थिति, दुकान, यान या आधान पर साफ-साफ और सहजदृश्य रूप से प्रदर्शित करेगा।

(8) हिंगरा - ऐसे प्रत्येक आधान पर जिसमें हिंगरा है, एक लेबल होगा, जिस पर निम्नलिखित प्ररूप में एक घोषणा मुद्रित होगी, अर्थात् -

“इस आधान में ईरान, अफगानिस्तान से (आयातित) हिंगरा है और यह प्रमाणित किया जाता है कि वह खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 1955 में अधिकतम मानकों के अनुरूप है।

(9) हल्की काली मिर्च - ऐसे प्रत्येक पैकेज पर जिसमें हल्की काली मिर्च है, एमार्क मोहर और इन विनियमों के विनियम 2.2.1 और 2.2.2 के अधीन विहित अपेक्षाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित लेबल होगा :

हल्की काली मिर्च (हल्की बैरीज)

(10) ऐसे प्रत्येक पैकेज पर जिसमें 'कैसिया छाल' हो निम्नलिखित लेबल लगा होगा :

कैसिया छाल (तेज)

(11) ऐसे प्रत्येक पैकेज पर जिसमें 'दालचीनी' हो निम्नलिखित लेबल लगा होगा :

दालचीनी (सीनामोन)

(12) लाल मिर्च के प्रत्येक पैकेज पर, जिसमें खाद्य तेल मिलाया गया है निम्नलिखित लेबल होगा :

इस पैकेज के लाल मिर्चों में खाद्य तेल (तेल का नाम)
दो प्रतिशत से अनधिक सम्मिश्रित है।

(13) आईसक्रीम, कुल्फी, कुल्फा और चाकलेट आईसक्रीम के प्रत्येक पैकेज पर, जिसमें स्टार्च है, लेबल पर विनियम 2.7.1(2) में यथा विनिर्दिष्ट एक घोषणा होगी।

(14) मसाला : तेल में तले हुए मिश्रित मसाले के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल होगा

मिरित मसाला (तला हुआ)

यह मसाला ----- (प्रयुक्त खाद्य तेल का नाम)
में तला गया है।

(15) आमिश्रित हींग : आमिश्रित हींग के प्रत्येक आधून पर आमिश्रण में प्रयुक्त खाद्य स्टार्च या खाद्य अनाज के आटे का लगभग संयोजन लेबल पर उपदर्शित किया जाएगा।

(16) ऐसे प्रत्येक पैकेज पर, जिसमें संशोधक या विरंजन कारकों से अभिक्रियित किया गया मैदा है, निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात् -

संशोधक/विरंजन कारकों से
अभिक्रियित आटा,
केवल बेकरियों द्वारा प्रयोग के लिए

(17) इन नियमों में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो माल्टेड दुग्ध आहार के प्रत्येक पैकेज पर, जिसमें कैरामल को छोड़कर प्राकृतिक रंजक द्रव्य मिला हुआ है, निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात् -

इस पैकेज में माल्टेड मिरित दूध में
अनुज्ञात प्राकृतिक रंजक द्रव्य है

(18) ऐसे खाद्य के, जिसमें अतिरिक्त मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिला है, प्रत्येक विज्ञापन और/या पैकेज पर, निम्नलिखित घोषणा होगी, अर्थात् -

"----- (खाद्य का नाम) के इस पैकेज में
अतिरिक्त मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिला है। यह 12 मास से कम
आयु के बच्चों के लिए अनुपयुक्त है।

(19) परिष्कृत साल बीज वसा के प्रत्येक आधान पर निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात्-

परिष्कृत साल बीज वसा केवल बेकरी और कनफेक्शनरी में उपयोग के लिए

(20) नमक या लौह प्रबलित सामान्य नमक के प्रत्येक आधान या पैकेज पर, जिसमें प्रतिपिण्डक के रूप में ऐल्युमिनियम सिलिकेट है, निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात् -

नमक/लौह प्रबलित सामान्य नमक*
इसमें अनुज्ञात प्रतिकेकक है

* जो लागू न हो उसे काट दें।

(21) लौह प्रबलित सामान्य नमक के प्रत्येक आधान या पैकेज पर निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात् -

लौह प्रबलित सामान्य नमक

(22) शुष्कित ग्लूकोज सिरप के प्रत्येक पैकेज पर, जिसमें 40 पी.पी.एम. से अधिक सल्फर-डाइ-आक्साइड हो, निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात्-

शुष्कित ग्लूकोज सिरप
केवल चीनी की कनफेक्शनरी में उपयोग के लिए

(23) ऐसे पैकेज पर जिसमें मिलाए गए सुवासक (फ्लेवर) सहित चाय अंतर्विष्ट है, निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात् -

“सुवासित चाय” (अनुज्ञात सुवासक का सामान्य नाम/ प्रतिशतता)
रजिस्ट्रीकरण सं. -----

(24) प्रत्येक ऐसे खाद्य के पैकेज पर, जिसमें इन विनियमों के विनियम 3.1.3(1) में दी गई सारणी में उल्लिखित अनुज्ञात कृत्रिम मधुकारक है, और ऐसे खाद्य के विज्ञापन पर निम्नलिखित लेबल लगाया जाएगा, अर्थात्-

- (i) इस ----- (खाद्य का नाम) में (कृत्रिम मधुकारक का नाम) है
- (ii) बालकों के लिए सिफारिश नहीं की जाती है।
- (iii) *(क)-ओमिलाई गई चीनी की मात्रा ----- ग्राम/100 ग्राम है।
- *(ख) इस उत्पाद पर चीनी नहीं मिलाई गई है।
- (iv) ओफेनिलकीटोन्यूक्स के लिए नहीं (यदि एम्परटेम मिलाई गई हो)

*जो लागू न हो उसे काट दें।

(25) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.4.5 (24 और 26) के अधीन घोषणा के अतिरिक्त, प्रत्येक ऐसे खाद्य, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्य) विनियम, 2011 के विनियम 3.1.3(1) में दी गई सारणी में उल्लिखित कृत्रिम मधुकारक अंतर्विष्ट किया जाना अनुज्ञात है, के पैकेज पर और ऐसे खाद्य के विज्ञापन पर निम्नलिखित लेबल लगाया जाएगा, अर्थात्-

कृत्रिम मधुकारक अंतर्विष्ट है और कैलोरी कनसेस के लिए

(26) विनियम 2.4.5(25) के अधीन घोषणा उत्पाद के नाम और व्यापार नाम के साथ दी जाएगी और नाम/व्यापार नाम के आकार का आधा होगा। घोषणा दो वाक्यों में, किंतु उसी खाने में, दी जा सकेगी :

(27) टेबल टाप मधुकारक के रूप में विपणित एस्परेटेम (मिथाइल एस्टर), ऐसीसल्फेम के सुक्रालोस और सैक्रीन सोडियम के प्रत्येक पैकेट पर और टेबल टाप मधुकारक के प्रत्येक विज्ञापन में निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात् -

इसमें ----- (कृत्रिम मधुकारक का नाम) है

बालकों के लिए सिफारिश नहीं की जाती है।

परंतु टेबल टाप मधुकारक के रूप में विपणित एस्परेटेम (मिथाइल एस्टर) के पैकेज पर और ऐसे टेबल टाप मधुकारक के विज्ञापन में निम्नलिखित लेबल रहेगा अर्थात् -

फेनिलकीटोन्यूरीक्स के लिए नहीं

(28) प्रत्येक ऐसे खाद्य के पैकेज पर, जिसमें खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्य) विनियम, 2011 के विनियम 3.1.3(1) में दी गई सारणी में वर्णित एस्परेटेम (मिथाइल एस्टर) और ऐसीसल्फेम पोटेशियम मधुकारकों के मिश्रण अंतर्विष्ट होना अनुज्ञात है, निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात्-

इसमें ----- (खाद्य का नाम) -----

एस्परेटेम (मिथाइल एस्टर) और ऐसीसल्फेम पोटेशियम का अधिमिश्रण है।

बालकों के लिए सिफारिश नहीं की जाती है।

(क) *मिलाई गई चीनी की मात्रा ----- ग्राम/100 ग्राम है।

(ख) इस उत्पाद में चीनी नहीं मिलाई गई है। ओ फेनिलकीटोन्यूरीक्स के लिए नहीं (यदि एस्परेटेम मिलाई गई हो)

* जो लागू न हो उसे काट दें।

(29) प्रत्येक ऐसे खाद्य के पैकेज पर, जिसमें खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्य) विनियम, 2011 के विनियम 3.1.2(1) में दी गई सारणी में वर्णित ऐसीसल्फेम पोटेशियम और सुक्रालोस मधुकारकों के मिश्रण अंतर्विष्ट होना अनुज्ञात है, निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात्-

(i) इसमें ----- (खाद्य का नाम) -----

सुक्रालोस और ऐसीसल्फेम पोटेशियम का अधिमिश्रण है।

(ii) बालकों के लिए सिफारिश नहीं की जाती है।

(iii) *(क) मिलाई गई चीनी की मात्रा ----- ग्राम/100 ग्राम है।

(ख) *इस उत्पाद में चीनी नहीं मिलाई गई है। ओ फेनिलकीटोन्यूरीक्स के लिए नहीं (यदि एस्परेटेम मिलाई गई हो)

* जो लागू न हो उसे काट दें।

(30) पान मसाले के प्रत्येक पैकेज और उससे संबंधित विज्ञापन पर निम्नलिखित चेतावनी लिखी होगी अर्थात् -

पान मसाला चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है

(31) सुपारी के प्रत्येक पैकेज पर और उससे संबंधित विज्ञापन में निम्नलिखित चेतावनी सहजदृश्य रूप में और बड़े मुद्रण में होगी, अर्थात्-

सुपारी चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

(32) फल स्कवाश के प्रत्येक पैकेज पर, जिसमें अतिरिक्त सोडियम या पोटेशियम लवण अंतर्विष्ट है और इसे चाहे जिस नाम से भी विक्रय किया जाए, निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात्-

इसमें अतिरिक्त सोडियम/पोटाशियम लवण है

(33) नेटामाइसिन से उपचारित पृष्ठ वाले चीज (कठोर) के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात् -

नेटामाइसिन के उपचारित पृष्ठ

(34) 30 प्रतिशत से अधिक चावल चोकर तेल से बनाए गए बेकरी और औद्योगिक मारगरीन के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात्-

बेकरी और औद्योगिक मारगरीन का यह पैकेज भार में 30 प्रतिशत से अधिक चावल चोकर के तेल से बनाया गया है।

(35) कार्बनिकृत और अकार्बनिकृत पेयों में प्रयोग के लिए सुवासक पायस और सुवासक पेस्ट के प्रत्येक पैकेज पर विलेय के लिए अनुदेश के अतिरिक्त निम्नलिखित घोषणा होगी, अर्थात्-

केवल कार्बनिकृत और अकार्बनिकृत पेयों में प्रयोग के लिए सुवासक पायस और सुवासक पेस्ट

(36) पेय जल के प्रत्येक पैकेज पर विनियम 2.3.3 में यथा विहित आकार के मोटे अक्षरों में निम्नलिखित घोषणा होगी, अर्थात्-

पैक किया गया पेय जल

पैकेज बंद पेय जल की एक बार प्रयोग योग्य प्लास्टिक की बोतलों पर निम्नलिखित घोषणा होगी :

प्रयोग करने के बाद बोतल को तोड़ दें

(37) खनिज जल के प्रत्येक पैकेज पर विनियम 2.3.3 में यथा विहित आकार के मोटे अक्षरों में निम्नलिखित घोषणा होगी, अर्थात्-

प्राकृतिक खनिज जल

पैकेज बंद खनिज जल की एक बार प्रयोग योग्य प्लास्टिक की बोतलों पर निम्नलिखित घोषणा होगी :

प्रयोग करने के बाद बोतल को तोड़ दें

(38) प्रत्येक ऐसे खाद्य पैकेज पर जिसमें कैफीन मिलाई गई है, निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात् -

कैफीन अंतर्विष्ट है।

परंतु यदि उत्पाद में कैफीन मिलाई गई है, तो यह आधान/बोतल पर घोषित किया जाएगा :

परंतु यह कि वापस किए जाने योग्य कांच की बोतलों की दशा में, जो पुनः भरे जाने के लिए पुनः चक्रित की जाती है, कैफीन की घोषणा क्राउन पर दी जा सकती है।

(39) कम वसा पनीर/छेना के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात्-

कम वसा पनीर/छेना

(40) चीज (चीजों) के प्रत्येक पैकेज पर, यदि पोलीफिलम/कपड़े के आवरण में पैक किया जाता है / जाते हैं, निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात्-

उपभोग से पूर्व बाह्य पैकिंग हटाएं

(41) वाष्पित डेजर्ट/वाष्पित कन्फेक्शन के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात् -

वाष्पित डेजर्ट/वाष्पित कन्फेक्शन में----- दुग्ध वसा/खाद्य वनस्पति तेल*/ और वनस्पति वसा है*

*जो लागू न हो, उसे काट दें।

(42) सामान्य नमक के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात् -

आयोडीनीकरण के लिए सामान्य नमक*/लौह प्रबलितओ/ पशु उपयोग*/परिरक्षण/ औषधिओ/औद्योगिक प्रयोग के लिए*

*जो लागू न हो उसे काट दें।

(43) बिस्कुटों, डबल रोटी और केकों के प्रत्येक पैकेज पर, जिसमें ओलिगोफ्रक्टोस है, निम्नलिखित घोषणा होगी, अर्थात्-

ओलिगोफ्रक्टोस (डाइटरी फाइबर)----- ग्राम/100 ग्राम अंतर्विष्ट है।

(44) ताजे फल के प्रत्येक पैकेज पर, यदि मोम से आलेपित किए गए हैं य निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात्-

मोम से आलेपित (मोम का नाम दें)

(45) मानव उपयोग के लिए जिलेटिन पर "जिलेटिन खाद्य श्रेणी" का लेबल लगा होगा।

(46) पोलीओल्स से अंतर्विष्ट खाद्य के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात्-

पोलीओल्स का दस्तावर प्रभाव हो सकता है

(47) पोलीडेक्सट्रोस में अंतर्विष्ट खाद्य के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात्-

पोलीडेक्सट्रोस का दस्तावर प्रभाव हो सकता है

विनियम 2.4.6 : उत्पाद लेबलों पर विनिर्दिष्ट निर्बंधन

(1) लेबल पर अपेक्षित विशिष्टियों के प्रतिकूल अधिनियम या नियमों के प्रति निर्देश नहीं होंगे- लेबल पर अधिनियम या इन नियमों में से किसी के प्रति कोई निर्देश या किसी ऐसी विशिष्टि या घोषणा पर जो अधिनियम या इन नियमों में से किसी के द्वारा लेबल पर सम्मिलित किए जाने के लिए अपेक्षित है कोई टिप्पणी या उसके प्रति निर्देश या उसका स्पष्टीकरण नहीं होगा जो प्रत्यक्षतः या विवक्षा द्वारा ऐसी विशिष्टि या घोषणा के प्रतिकूल है या उसे विशेषित या उपांतरित करता है।

(2) लेबलों पर चिकित्सा वृत्ति की सिफारिशों को विवक्षित करने वाले शब्दों पर प्रयोग नहीं किया जाएगा - विक्रय के लिए खाद्य अंतर्विष्ट करने वाले किसी पैकेट के लेबल पर "चिकित्सा वृत्ति ने सिफारिश की है" शब्द या ऐसे कोई शब्द नहीं होंगे जिनसे यह विवक्षित होता हो या सुझाव मिलता हो कि खाद्य की चिकित्सा व्यवसायियों ने सिफारिश की है, उसे विहित किया है या अनुमोदित किया है।

(3) अनुकृति दर्शित करने वाले शब्दों के अप्राधिकृत उपयोग का प्रतिषेध

(1) किसी खाद्य पदार्थ को अंतर्विष्ट करने वाले किसी पैकेज के साथ संलग्न विवरण में या लेबल पर "अनुकृति" शब्द या ऐसा कोई शब्द या ऐसे कोई शब्द जिनमें यह विवक्षित हो कि पदार्थ किसी अन्य खाद्य का प्रतिस्थानी है तब तक नहीं लिखे जाएंगे जब तक कि उक्त शब्द या शब्दों का उपयोग इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात न किया गया हो।

(2) ऐसे किसी फल-सिरप, फल-रस, फल-स्ववैश, फल-पेय या कार्डियल या क्रश या खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्य) विनियम, 2011 के अध्याय 5 के अधीन मानकीकृत किसी अन्य फल उत्पाद का, जिसमें फल रस या फल गूदा या फल अंश की विहित मात्रा नहीं है, यथास्थिति, फल-सिरप, फल रस, फल स्ववैश, फल पेय या कार्डियल, क्रश अन्य उत्पाद के रूप में वर्णित नहीं किया जाएगा।

(3) कोई खाद्य उत्पाद जिसमें फल की विनिर्दिष्ट मात्रा अंतर्विष्ट नहीं है और ग्राहक को चाहे शब्दों के प्रयोग से या चित्रात्मक निरूपण से इस बात का धोखा होने, खमित होने या मिथ्या खम होने की संभावना है कि उत्पाद में फल अंतर्विष्ट है, लेबल पर स्पष्ट रूप से और सहजदृश्य "(फल का नाम) से सुवासित किया गया है," चिह्नित किया जाएगा।

(4) कोई खाद्य उत्पाद, जिसमें केवल फल सुवास, चाहे प्राकृतिक सुवास और प्राकृतिक सुवासक पदार्थ या प्राकृतिक सुवासक पदार्थों के तदरूप, कृत्रिम सुवासक पदार्थ, एकल रूप में या इनके संयोजन में अंतर्विष्ट हैं, फल उत्पाद के रूप में वर्णित नहीं किया जाएगा और ऐसे उत्पाद को वर्णित करने में "मिलाया गया" (फल का नाम) सुवास शब्द का प्रयोग किया जाएगा।

(5) कार्बोनेटीकृत जल पर, जिसमें कोई फल-रस या लुगदी अंतर्विष्ट नहीं है ऐसा कोई लेबल नहीं होगा जिससे उपभोक्ता को यह विश्वास हो जाए कि वह फल-उत्पाद है।

(6) किसी फल या वनस्पति, उत्पाद में, जिसके बारे में यह अभिकथन है कि उसका विटामिन सी से प्रबलीकरण किया गया है, उत्पाद के प्रति सौ ग्राम 40 मि.ग्रा. से अन्यून एस्कोर्बिक एसिड होगा।

(4) अनुकृति पर "शुद्ध" नहीं लिखा जाना :

किसी ऐसे पैकेज के लेबल पर जिसमें किसी खाद्य की अनुकृति है, "शुद्ध" शब्द या उसी महत्व का कोई शब्द सम्मिलित नहीं किया जाएगा या नहीं किए जाएंगे।

(5) पेय जल (पैकेजबंद और खनिज जल दोनों) के लिए लेबल लगाने संबंधी प्रतिबंध

(i) मानक के अंतर्गत आने वाले उत्पाद की विशेषताओं की बाबत कोई औषधीय (निवारक, उपशमक या आरोग्यकारी) संबंधी दावा नहीं किया जाएगा, उपभोक्ता के स्वास्थ्य से संबंधित अन्य फायदाप्रद प्रभाव दावे नहीं किए जाएंगे।

(ii) अवस्थान, पल्ली या विनिर्दिष्ट स्थान का नाम तब तक व्यापार नाम का भाग नहीं हो सकेगा जब तक कि यह उस व्यापार नाम द्वारा अभिहित स्थान से एकत्रित किए गए पैकेजबंद जल को निर्दिष्ट नहीं करता है।

(iii) कोई ऐसा कथन करके या कोई ऐसी चित्रात्मक युक्ति का प्रयोग करके, जिससे जनता के मन में भ्रम पैदा हो सकता है या ऐसे जलों की प्रकृति, उद्गम, संयोजन और विशेषताओं के बारे में किसी भी प्रकार से जनता खमित हो सकती है, विक्रय करना प्रतिषिद्ध है।

2.5 : विज्ञापन पर निर्बंधन :

किसी भी खाद्य की बाबत कोई ऐसा विज्ञापन नहीं होगा जो भ्रामक हो या जिससे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) या उसके अधीन बनाए गए नियमों/ विनियमों का उल्लंघन होता हो।

2.6 : लेबल लगाने की अपेक्षाओं से छूट :

2.6.1

(1) जहां पैकेज का सतही क्षेत्र 100 वर्ग सेंटीमीटर से अधिक नहीं है, वहां ऐसे पैकेज के लेबल को संघटकों की सूची, लॉट संख्यांक या बैच संख्यांक या कोड संख्यांक, पोषणकारी जानकारी देने और प्रयोग के लिए अनुदेश की अपेक्षाओं से छूट प्राप्त होगी, किंतु ये जानकारी यथास्थिति, थोक पैकेजों या मल्टीपीस पैकेजों पर दी जाएगी।

(2) 30 वर्ग सेंटीमीटर के कम सतही क्षेत्र के पैकेज पर 'विनिर्माण की तारीख' या 'तारीख से पूर्व उत्तम' या 'पर्यवसान की तारीख' का उल्लेख करना अपेक्षित नहीं हो सकेगा किंतु ये जानकारी, यथास्थिति, थोक पैकेजों या मल्टीपीस पैकेजों पर दी जाएगी।

(3) बोतलों में विपणित किए जाने वाले तरल पदार्थों की दशा में, यदि ऐसी बोतल को पुनः भरकर पुनःप्रयोग किया जाना अपेक्षित है, तो संघटकों की सूची देने की अपेक्षा से छूट होगी, किंतु इन विनियमों के विनियम 2.2.2(4) में विनिर्दिष्ट पोषणकारी जानकारी लेबल पर दी जाएगी।

परंतु ऐसी कांच की बोतलों की दशा में, जो 19 मार्च, 2009 के बाद विनिर्मित की गई हैं, संघटकों की सूची और पोषणकारी जानकारी बोतल पर दी जाएगी।

(4) ऐसे खाद्य की दशा में, जिसका शेल्फ लाइफ सात दिन से अधिक नहीं है, पैकेजबंद खाद्य पदार्थ के लेबल पर 'विनिर्माण की तारीख' का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं हो सकेगा, किंतु 'तारीख तक प्रयोग करें' का उल्लेख विनिर्माता या पैकर द्वारा लेबल पर किया जाएगा।

(5) थोक पैकेजों की दशा में, संघटकों की सूची विनिर्माण और पैक करने की तारीख, से पूर्व उत्तम, किरणित खाद्य पर लेबल और लोगो लगाने से संबंधित विशिष्टियां विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकेंगी।

2.7 : खाद्य में योग, सम्मिश्रण या अभाव की सूचना :

2.7.1

(1) किसी ऐसे खाद्य पदार्थ में, जिसमें योग, सम्मिश्रण या अभाव है, प्रत्येक विज्ञापन में और उसकी मूल्य या व्यापार सूची में ऐसे खाद्य का उल्लेख उस रूप में किया जाएगा कि उसमें ऐसा योग, सम्मिश्रण या अभाव है और उसमें ऐसे योग, सम्मिश्रण या अभाव की प्रकृति और मात्रा का भी विनिर्देश किया जाएगा। खाद्य के आधान से संबद्ध विज्ञापन या मूल्य या व्यापार सूची या लेबल पर ऐसे कोई शब्द नहीं होंगे जिससे यह विवक्षित हो सके कि खाद्य शुद्ध है :

परंतु इस नियम के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित सम्मिश्रण या योग नहीं समझा जाएगा, अर्थात्—

(क) मक्खन या मारजरीन में नमक,

(ख) खाद्य में विटामिन।

(2) प्रत्येक ऐसे खाद्य के पैकेज पर जो किसी योग, सम्मिश्रण या अभाव के कारण शुद्ध नहीं है, आसंजक लेबल का एक लेबल लगाया जाएगा, जिस पर निम्नलिखित घोषणा होगी :

घोषणा

इस (क)----- में अधिक से अधिक।

(ख)----- प्रतिशत

(ग)----- का सम्मिश्रण / योग है।

(क) यहां खाद्य का नाम लिखें।

(ख) यहां उस सम्मिश्रण की मात्रा लिखें जो विद्यमान हो।

(ग) यहां उस सम्मिश्रण का नाम या उस संघटक कानाम जिसका अभाव है लिखें।

जहां संदर्भ से ऐसा अपेक्षित हो, वहां “का सम्मिश्रण सम्मिलित है” शब्दों के स्थान पर “----- का योग है” या “----- कमी का अभाव है” शब्द रखे जाएंगे।

(3) जब तक कि किसी ऐसे खाद्य के जिसमें योग, सम्मिश्रण या अभाव है, विक्रेता के पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि क्रेता घोषणात्मक लेबल को पढ़े और समझ सकता है, वह पूछने पर क्रेता को, विक्रय के समय घोषणात्मक लेबल में अंतर्विष्ट जानकारी मौखिक शब्दों द्वारा देगा।

(4) इस विनियम 2.7.1 में अंतर्विष्ट किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी व्यक्ति को इस बात के लिए प्राधिकृत करती है कि वह इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन शुद्ध हालत में बेचे जाने के लिए अपेक्षित किसी खाद्य पदार्थ का विक्रय उसकी शुद्ध हालत में करने से अन्यथा करे।

(5) इस विनियम 2.7.1 में अंतर्विष्ट कोई भी बात, मिठाइयों, कन्फेक्शनरी, बिस्कुट, बेकरी उत्पादों, प्रसंस्कृत फलों, वातित जल, शाकों और सुरुचि कारकों की दशा में लागू नहीं होगी।

वी. एन. गौड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/187-ओ/11/असा.]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Food Safety and Standards Authority of India)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st August, 2011

F.No. 2-15015/30/2010 Whereas in exercise of the powers conferred by clause (k) of subsection (2) of section 92 read with section 23 of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make Food Safety and Standards Regulations in so far they relates to Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, and;

Whereas these draft Regulations were published in consolidated form at pages 1 to 776 in the Gazette of India Extraordinary Part III – Sec. 4 dated 20th October 2010 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the Gazette were made available to the public on the 21st October 2010;

And whereas objections and suggestions received from the stakeholders within the specified period on the said draft Regulations have been considered and finalized by the Food Safety and Standards Authority of India.

Now therefore, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following Regulations, namely,—

FOOD SAFETY AND STANDARDS (PACKAGING AND LABELLING) REGULATIONS, 2011**CHAPTER 1****GENERAL****1.1: Short title and commencement**

1.1.1: These regulations may be called the Food Safety and Standards (Packaging and labelling) Regulations, 2011

1.1.2: These regulations shall come into force on or after 5th August, 2011

1.2: Definitions—

1.2.1: In these regulations unless the context otherwise requires:

1. “Best before” means the date which signifies the end of the period under any stated storage conditions during which the food shall remain fully marketable and shall retain any specific qualities for which tacit or express claims have been made and beyond that date, the food may still be perfectly safe to consume, though its quality may have diminished. However the food shall not be sold if at any stage the product becomes unsafe.

2. “Date of manufacture” means the date on which the food becomes the product as described;

3. “Date of packaging” means the date on which the food is placed in the immediate container in which it will be ultimately sold;

4. “Infant” means a child not more than twelve months of age;

5. “Lot number” or “code number” or “batch number” means the number either in numericals or alphabets or in combination thereof, representing the lot number or code number or batch number, being preceded by the words “Lot No” or “Lot” or “code number” or “Code” or Batch No” or “Batch” or any distinguishing prefix by which the food can be traced in manufacture and identified in distribution.

6. “Multipiece package” means a package containing two or more individually packaged or labelled pieces of the same commodity of identical quantity, intended for retail either in individual pieces or packages as a whole.

7. “Non- Vegetarian Food” means an article of food which contains whole or part of any animal including birds, fresh water or marine animals or eggs or products of any animal origin, but excluding milk or milk products, as an ingredient;

8. “Prepackaged” or “Pre-packed food”, means food, which is placed in a package of any nature, in such a manner that the contents cannot be changed without tampering it and which is ready for sale to the consumer.

Note: The expression "package" wherever it occurs in these Regulations, shall be construed as package containing pre-packed food articles.

9. "Principal Display Panel" means that part of the container/package which is intended or likely to be displayed or presented or shown or examined by the customer under normal and customary conditions of display, sale or purchase of the commodity contained therein.

10. "Use – by date" or "Recommended last consumption date" or "Expiry date" means the date which signifies the end of the estimated period under any stated storage conditions, after which the food probably will not have the quality and safety attributes normally expected by the consumers and the food shall not be sold;

11. "Vegetarian Food" means any article of Food other than Non- Vegetarian Food as defined in regulation 1.2.1 (7).

12. "Wholesale package" means a package containing —

(a) a number of retail packages, where such first mentioned package is intended for sale, distribution or delivery to an intermediary and is not intended for sale direct to a single consumer; or

(b) a commodity of food sold to an intermediary in bulk to enable such intermediary to sell, distribute or deliver such commodity of food to the consumer in smaller quantities.

CHAPTER-2

PACKAGING AND LABELLING

2.1: Packaging

2.1.1: General Requirements

1. A utensil or container made of the following materials or metals, when used in the preparation, packaging and storing of food shall be deemed to render it unfit for human consumption:—

(a) containers which are rusty;

(b) enameled containers which have become chipped and rusty;

(c) copper or brass containers which are not properly tinned

(d) containers made of aluminium not conforming in chemical composition to IS:20 specification for Cast Aluminium & Aluminium Alloy for utensils or IS:21 specification for Wrought Aluminium and Aluminium Alloy for utensils.

2. Containers made of plastic materials should conform to the following Indian Standards Specification, used as appliances or receptacles for packing or storing whether partly or wholly, food articles namely :—

(i) IS : 10146 (Specification for Polyethylene in contact with foodstuffs);

(ii) IS : 10142 (Specification for Styrene Polymers in contact with foodstuffs);

(iii) IS : 10151 (Specification for Polyvinyl Chloride (PVC), in contact with foodstuffs);

(iv) IS : 10910 (Specification for Polypropylene in contact with foodstuffs);

(v) IS : 11434 (Specification for Ionomer Resins in contact with foodstuffs);

(vi) IS: 11704 Specification for Ethylene Acrylic Acid (EAA) copolymer.

(vii) IS: 12252 - Specification for Poly alkylene terephthalates (PET).

(viii) IS: 12247 - Specification for Nylon 6 Polymer;

(ix) IS: 13601 - Ethylene Vinyl Acetate (EVA);

(x) IS: 13576 - Ethylene Metha Acrylic Acid (EMAA);

(xi) Tin and plastic containers once used, shall not be re-used for packaging of edible oils and fats;

Provided that utensils or containers made of copper though not properly tinned, may be used for the preparation of sugar confectionery or essential oils and mere use of such utensils or containers shall not be deemed to render sugar confectionery or essential oils unfit for human consumption.

3. General packaging requirements for Canned products,

- (i) All containers shall be securely packed and sealed.
- (ii) The exterior of the cans shall be free from major dents, rust, perforations and seam distortions.
- (iii) Cans shall be free from leaks.

2.1.2: Product specific requirements

1. Packaging requirements for Milk and Milk Products

(a) Bottling or filling of containers with heat-treated milk and milk product shall be carried out mechanically and the sealing of the containers shall be carried out automatically.

(b) Wrapping or packaging may not be re-used for dairy products, except where the containers are of a type which may be re-used after thorough cleaning and disinfecting.

(c) Sealing shall be carried out in the establishment in which the last heat-treatment of drinking milk or liquid milk-base products has been carried out, immediately after filling, by means of a sealing device which ensures that the milk is protected from any adverse effects of external origin on its characteristic. The sealing device shall be so designed that once the container has been opened, the evidence of opening remains clear and easy to check.

(d) Immediately after packaging, the dairy products shall be placed in the rooms provided for storage.

2. Packaging requirements for Edible oil/ fat:

Tin Plate used for the manufacture of tin containers for packaging edible oils and fats shall conform to the standards of prime grade quality contained in B.I.S. Standards No. 1993 or 13955 or 9025 or 13954 as amended from time to time and in respect of Tin containers for packaging edible oils and fats shall conform to IS No. 10325 or 10339 as amended from time to time.

3. Packaging requirements for Fruits and Vegetables Products

(i) Every container in which any fruit product is packed shall be so sealed that it cannot be opened without destroying the licensing number and the special identification mark of the manufacture to be displayed on the top or neck of the bottle.

(ii) For Canned fruits, juices and vegetables, sanitary top cans made up of suitable kind of tin plates shall be used.

(iii) For Bottled fruits, juices and vegetables, only bottles/ jars capable of giving hermetic seal shall be used.

(iv) Juices, squashes, crush, cordials, syrups, barley waters and other beverages shall be packed in clean bottles securely sealed. These products when frozen and sold in the form of ice shall be packed in suitable cartons. Juices and Pulps may be packed in wooden barrels when sulphited.

(v) For packing Preserves, Jams, Jellies, and Marmalades, new cans, clean jars, new canisters, bottles, chinaware jars, aluminium containers may be used and it shall be securely sealed.

(vi) For Pickles, clean bottles, jars, wooden casks, tin containers covered from inside with polythene lining of 250 gauge or suitable lacquered cans shall be used.

(vii) For Tomato Ketchups and Sauces, clean bottles shall be used. If acidity does not exceed 0.5% as acetic acid, open top sanitary cans may also be used.

(viii) Candied fruits and peels and dried fruits and vegetables can be packed in paper bags, cardboard or wooden boxes, new tins, bottles, jars, aluminium and other suitable approved containers.

(ix) Fruits and Vegetable products can also be packed in aseptic and flexible packaging material having good grade quality conforming to the standards laid down by BIS.

4. Packaging requirements for Canned Meat Products

(i) New sanitary top cans made from suitable kind of tin plate shall be used. The cans shall be lacquered internally; they shall be sealed hermetically after filling. The lacquer used shall be sulphur resistant and shall not be soluble in fat or brine.

(ii) Cans used for filling pork luncheon meat shall be coated internally with edible gelatin, lard or lined with vegetable parchment paper before being filled.

(iii) Meat products packed in hermetically sealed containers shall be processed to withstand spoilage under commercial conditions of storage and transport.

5. Packaging requirements for Drinking Water (Both Packaged and Mineral Water)

It shall be packed in clean, hygienic, colourless, transparent and tamperproof bottles/containers made of polyethylene (PE) (conforming to IS:10146 or polyvinyl chloride (PVC) conforming to IS : 10151 or polyalkylene terephthalate (PET and PBT) conforming to IS : 12252 or polypropylene conforming to IS : 10910 or foodgrade polycarbonate or sterile glass bottles suitable for preventing possible adulteration or contamination of the water.

All packaging materials of plastic origin shall pass the prescribed overall migration and colour migration limits.

2.2: Labelling

2.2.1: General Requirements

1. Every prepackaged food shall carry a label containing information as required here under unless otherwise provided, namely,—

2. The particulars of declaration required under these Regulations to be specified on the label shall be in English or Hindi in Devnagri script:

Provided that nothing herein contained shall prevent the use of any other language in addition to the language required under this regulation.

3. Pre-packaged food shall not be described or presented on any label or in any labelling manner that is false, misleading or deceptive or is likely to create an erroneous impression regarding its character in any respect;

4. Label in pre-packaged foods shall be applied in such a manner that they will not become separated from the container;

5. Contents on the label shall be clear, prominent, indelible and readily legible by the consumer under normal conditions of purchase and use;

6. Where the container is covered by a wrapper, the wrapper shall carry the necessary information or the label on the container shall be readily legible through the outer wrapper and not obscured by it;

2.2.2: Labelling of Pre-packaged Foods

In addition to the General Labelling requirements specified in 2.2.1 above every package of food shall carry the following information on the label, namely,—

1. The Name of Food: The name of the food shall include trade name or description of food contained in the package.

2. List of Ingredients: Except for single ingredient foods, a list of ingredients shall be declared on the label in the following manner:—

(a) The list of ingredients shall contain an appropriate title, such as the term "Ingredients";

(b) The name of Ingredients used in the product shall be listed in descending order of their composition by weight or volume, as the case may be, at the time of its manufacture;

(c) A specific name shall be used for ingredients in the list of Ingredients;

Provided that for Ingredients falling in the respective classes, the following class titles may be used, namely:—

Classes	Class Titles
Edible vegetable oils/Edible vegetable fat	Edible vegetable oil/ Edible vegetable fat or both hydrogenated or Partially hydrogenated oil
Animal fat/ oil other than milk fat	Give name of the source of fat. Pork fat, lard and beef fat or extracts thereof shall be declared by specific names
Starches, other than chemically modified starches	Starch
All species of fish where the fish constitutes an ingredient of another food and provided that the labelling and presentation of such food does not refer to a species of fish	Fish

All types of poultry meat where such meat constitutes an ingredient of another food and provided that the labelling and presentation of such a food does not refer to a specific type of poultry meat	Poultry meat
All types of cheese where cheese or mixture of cheeses constitutes an ingredient of another food and provided that the labelling and presentation of such food does not refer to a specific type of cheese	Cheese
All spices and condiments and their extracts	Spices and condiments or mixed spices/ condiments as appropriate
All types of gum or preparations used in the manufacture of gum base for chewing gum	Gum Base
Anhydrous dextrose and dextrose monohydrate	Dextrose or Glucose
All types of Caseinates	Caseinates
Press, expeller or refined cocoa butter	Cocoa butter
All crystallized fruit	Crystallized fruit
All milk and milk products derived solely from milk	Milk solids
Cocoa bean, Coconib, Cocomass, Cocoa press cakes, Cocoa powder (Fine/Dust)	Cocoa solids

Provided further that pork fat, lard and beef fat or extract thereof shall be declared by their specific names;

(d) Where an ingredient itself is the product of two or more ingredients, such a compound ingredients shall be declared in the list of ingredients, and shall be accompanied by a list, in brackets, of its ingredients in descending order of weight or volume, as the case may be:

Provided that where a compound ingredient, constitutes less than five percent of the food, the list of ingredients of the compound ingredient, other than food additive, need not to be declared;

(e) Added water shall be declared in the list of ingredients except in cases where water forms part of an ingredient, such as, brine, syrup or broth, used in the compound food and so declared in the list of ingredients:

Provided that water or other volatile ingredients evaporated in the course of manufacture need not be declared;

Provided further that in the case of dehydrated or condensed food, which are intended to be reconstituted by addition of water, the ingredients in such reconstituted food shall be declared in descending order of weight or volume as the case may be, and shall contain a statement such as "Ingredients of the product when prepared in accordance with the directions on the label";

(f) Every package of food sold as a mixture or combination shall disclose the percentage of the ingredient used at the time of the manufacture of the food (including compound ingredients or categories of ingredients), if such ingredient—

(i) is emphasised as present on the label through words or pictures or graphics; or

(ii) is not within the name of the food but, is essential to characterise the food and is expected to be present in the food by consumers, and if the omission of the quantitative ingredient declaration will mislead or deceive the consumer.

Provided that where the ingredient has been used as flavouring agent, the disclosure of such ingredient is not required:

Provided further that where the drained net weight is indicated on the label as required or in case of such food products where specific provisions are stipulated under these Regulations or where a pictorial representation of a serving suggestion is made for consumer information and use, the disclosure of such ingredient is not required.

Provided further that in case of any bottle containing liquid milk or liquid beverage having milk as an ingredient, soft drink, carbonated water or ready-to-serve fruit beverages, the declarations with regard to addition of fruit pulp and fruit juice shall invariably appear on the body of the bottle.

3. Nutritional information – Nutritional Information or nutritional facts per 100 gm or 100ml or per serving of the product shall be given on the label containing the following:—

- (i) energy value in kcal; -
- (ii) the amounts of protein, carbohydrate (specify quantity of sugar) and fat in gram (g) or ml;
- (iii) the amount of any other nutrient for which a nutrition or health claim is made:

Provided that where a claim is made regarding the amount or type of fatty acids or the amount of cholesterol, the amount of saturated fatty acids, monounsaturated fatty acids and polyunsaturated fatty acids in gram (g) and cholesterol in milligram (mg) shall be declared, and the amount of trans fatty acid in gram (g) shall be declared in addition to the other requirement stipulated above;

(iv) Wherever, numerical information on vitamins and minerals is declared, it shall be expressed in metric units;

(v) Where the nutrition declaration is made per serving, the amount in gram (g) or milliliter (ml) shall be included for reference beside the serving measure;

Provided that the food claimed to be enriched with nutrients, such as, minerals, proteins, vitamins, metals or their compounds, amino acids or enzymes shall give the quantities of such added nutrients on the label.

Provided that —

(i) the nutritional information may not be necessary, in case of foods such as raw agricultural commodities, like, wheat, rice, cereals, spices, spice mixes, herbs, condiments, table salt, sugar, jaggery, or non-nutritive products, like, soluble tea, coffee, soluble coffee, coffee-chicory mixture, packaged drinking water, packaged mineral water, alcoholic beverages or fruit and vegetables, processed and pre-packaged assorted vegetables, fruits, vegetables and products that comprise of single ingredient, pickles, papad, or foods served for immediate consumption such as served in hospitals, hotels or by food services vendors or *halwais*, or food shipped in bulk which is not for sale in that form to consumers.

(ii) The compliance to quantity of declared nutrients on the label shall be according to the established practices.

Explanation — For the purpose of this provision, at the time of analysis, due consideration, based on shelf-life, storage, and inherent nature of the food shall be kept in view in case of quantity declared nutrients;

(iii) The food, in which hydrogenated vegetable fats or bakery shortening is used shall declare on the label that 'hydrogenated vegetable fats or bakery shortening used- contains trans fats;

Provided further that, a health claim of 'trans fat free' may be made in cases where the trans fat is less than 0.2 gm per serving of food and the claim 'saturated fat free' may be made in cases where the saturated fat does not exceed 0.1 gm per 100 gm or 100 ml of food.

For the purpose of regulation 2.2.2 (3);

(i) "Health claims" means any representation that states, suggests or implies that a relationship exists between a food or a constituent of that food and health and include nutrition claims which describe the physiological role of the nutrient in growth, development and normal functions of the body, other functional claims concerning specific beneficial effect of the consumption of food or its constituents, in the context of the total diet, on normal functions or biological activities of the body and such claims relate to a positive contribution to health or to the improvement of function or to modifying or preserving health, or disease, risk reduction claim relating to the consumption of a food or food constituents, in the context of the total diet, to the reduced risk of developing a disease or health related condition;

(ii) "Nutrition claim" means any representation which states, suggests or implies that a food has particular nutritional properties which are not limited to the energy value but include protein, fat carbohydrates, vitamins and minerals;

(iii) "Risk reduction" in the context of health claims means significantly altering a major risk factor for a disease or health-related condition;

Provided further that in the case of returnable new glass bottle manufactured and used for packing of such beverages on or after 19th March 2009, the list of ingredient and nutritional information shall be given on the bottle.

4. Declaration regarding Veg or Non veg –

(i) Every package of "Non Vegetarian" food shall bear a declaration to this effect made by a symbol and colour code as stipulated below to indicate that the product is Non-Vegetarian Food. The symbol shall consist of a brown colour filled circle having a diameter not less than the minimum size specified in the Table mentioned in the regulation 2.2.2 (4) (iv), inside a square with brown outline having sides double the diameter of the circle as indicated below :



Brown colour

(ii) Where any article of food contains egg only as Non-Vegetarian ingredient, the manufacturer, or packer or seller may give declaration to this effect in addition to the said symbol.

(iii) Every package of Vegetarian Food shall bear a declaration to this effect by a symbol and colour code as stipulated below for this purpose to indicate that the product is Vegetarian Food. The symbol shall consist of a green colour filled circle, having a diameter not less than the minimum size specified in the Table below, inside the square with green outline having size double the diameter of the circle, as indicated below :



Green colour

(iv) Size of the logo

Sl No.	Area of principal display panel	Minimum size of diameters in mm
1.	Upto 100 cms. Square.	3
2.	Above 100 cms. square upto 500 cms square.	4
3.	Above 500 cms square upto 2500 cms square.	6
4.	Above 2500 cms. Square.	8

The symbol shall be prominently displayed

(i) on the package having contrast background on principal display panel;

(ii) just close in proximity to the name or brand name of the product;

(iii) on the labels, containers, pamphlets, leaflets, advertisements in any media;

Provided also that the provisions of regulation 2.2.2(4) shall not apply in respect of mineral water or packaged drinking water or carbonated water or alcoholic drinks, or liquid milk and milk powders.

5. Declaration regarding Food Additives-

(i) For food additives falling in the respective classes and appearing in lists of food additives permitted for use in foods generally, the following class titles shall be used together with the specific names or recognized international numerical identifications:

Acidity Regulator, Acids, Anticaking Agent, Antifoaming Agent, Antioxidant, Bulking Agent, Colour, Colour Retention Agent, Emulsifier, Emulsifying Salt, Firming Agent, Flour Treatment Agent, Flavour Enhancer, Foaming Agent, Gelling Agent, Glazing Agent, Humectant, Preservative, Propellant, Raising Agent, Stabilizer, Sweetener, Thickener:

(ii) Addition of colours and/or Flavours—

(a) Extraneous addition of colouring matter to be mentioned on the label – Where an extraneous colouring matter has been added to any article of food, there shall be displayed one of the following

statements in capital letters, just beneath the list of the ingredients on the label attached to any package of food so coloured, namely:

CONTAINS PERMITTED NATURAL COLOUR(S)

OR

CONTAINS PERMITTED SYNTHETIC FOOD COLOUR(S)

OR

CONTAINS PERMITTED NATURAL AND SYNTHETIC FOOD COLOUR(S)

Provided that where such a statement is displayed along with the name or INS no of the food colour, the colour used in the product need not be mentioned in the list of ingredients.

(b) Extraneous addition of flavouring agents to be mentioned on the label.

Where an extraneous flavouring agent has been added to any article of food, there shall be written just beneath the list of ingredients on the label attached to any package of food so flavoured, a statement in capital letters as below :

CONTAINS ADDED FLAVOUR (specify type of flavouring agent as per Regulation 3.1.10(1) of Food Safety and Standards (Food product standards and food additive) Regulation, 2011

(c) In case both colour and flavour are used in the product, one of the following combined statements in capital letters shall be displayed, just beneath the list of ingredients on the label attached to any package of food so coloured and flavoured, namely :—

CONTAINS PERMITTED NATURAL COLOUR(S) AND ADDED FLAVOUR(S)

OR

CONTAINS PERMITTED SYNTHETIC FOOD COLOUR(S) AND ADDED FLAVOUR(S)

OR

CONTAINS PERMITTED NATURAL AND SYNTHETIC FOOD COLOUR(S) AND ADDED FLAVOUR(S)

Provided that in case of artificial flavouring substances, the label shall declare the common name of the flavours, but in case of the natural flavouring substances or nature identical flavouring substances, the class name of flavours shall be mentioned on the label and it shall comply with the requirement of label declaration as specified under the regulation 2.2.2 (5) (ii)

Note:— When statement regarding addition of colours and/or flavours is displayed on the label in accordance with regulation 2.2.2(5)(ii) and regulation 3.2.1 of Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additive) Regulation, 2011, addition of such colours and/or flavours need not be mentioned in the list of ingredients. Also, in addition to above statement, the common name or class name of the flavour shall also be mentioned on label.

Provided further that when combined declaration of colours and flavours are given, the International Numerical Identification number of colours used shall also be indicated either under the list of ingredients or along with the declaration.

Provided also further that every package of synthetic food colours preparation and mixture shall bear a label upon which is printed a declaration giving the percentage of total dye content

6. Name and complete address of the manufacturer

(i) The name and complete address of the manufacturer and the manufacturing unit if these are located at different places and in case the manufacturer is not the packer or bottler, the name and complete address of the packing or bottling unit as the case may be shall be declared on every package of food;

(ii) Where an article of food is manufactured or packed or bottled by a person or a company under the written authority of some other manufacturer or company, under his or its brand name, the label shall carry the name and complete address of the manufacturing or packing or bottling unit as the case may be, and also the name and complete address of the manufacturer or the company, for and on whose behalf it is manufactured or packed or bottled;

(iii) Where an article of food is imported into India, the package of food shall also carry the name and complete address of the importer in India.

Provided further that where any food article manufactured outside India is packed or bottled in India, the package containing such food article shall also bear on the label, the name of the country of origin of the food article and the name and complete address of the importer and the premises of packing or bottling in India.

7. Net quantity

(i) Net quantity by weight or volume or number, as the case may be, shall be declared on every package of food; and

(ii) In addition to the declaration of net quantity, a food packed in a liquid medium shall carry a declaration of the drained weight of the food.

Explanation 1.— For the purposes of this requirement the expression “liquid medium” include water, aqueous solutions of sugar and salt, fruit and vegetable juices or vinegar, either singly or in combination.

Explanation 2.— In declaring the net quantity of the commodity contained in the package, the weight of the wrappers and packaging materials shall be excluded:

(iii) Where a package contains a large number of small items of confectionery, each of which is separately wrapped and it is not reasonably practicable to exclude from the net weight of the commodity, the weight of such immediate wrappers of all the items of the confectionery contained in the package, the net weight declared on the package containing such confectionery or on the label thereof may include the weight of such immediate wrapper if the total weight of such immediate wrapper does not exceed –

(a) eight per cent, Where such immediate wrapper is a waxed paper or other paper with wax or aluminium foil under strip; or

(b) six per cent. In case of other paper of the total net weight of all the items of confectionery contained in the package minus the weight of immediate wrapper.

8. Lot/Code/Batch identification

A batch number or code number or lot number which is a mark of identification by which the food can be traced in the manufacture and identified in the distribution, shall be given on the label.

Provided that in case of packages containing bread and milk including sterilised milk, particulars under this clause shall not be required to be given on the label.

9. Date of manufacture or packing.—

The date, month and year in which the commodity is manufactured, packed or pre-packed, shall be given on the label:

Provided that the month and the year of manufacture, packing or pre-packing shall be given if the “Best Before Date” of the products is more than three months:

Provided further that in case any package contains commodity which has a short shelf life of less than three months, the date, month and year in which the commodity is manufactured or prepared or pre-packed shall be mentioned on the label.

10. Best Before and Use By Date

(i) the month and year in capital letters upto which the product is best for consumption, in the following manner, namely:—

“BEST BEFORE MONTHS AND YEAR

OR

“BEST BEFORE MONTHS FROM PACKAGING

OR

“BEST BEFORE MONTHS FROM MANUFACTURE

(Note: — blank be filled up)

(ii) In case of package or bottle containing sterilised or Ultra High Temperature treated milk, soya milk, flavoured milk, any package containing bread, dhokla, bhelpuri, pizza, doughnuts, khoa, paneer, or any

uncanned package of fruits, vegetable, meat, fish or any other like commodity, the declaration be made as follows:—

“BEST BEFOREDATE/MONTH/YEAR”

OR

“BEST BEFORE.....DAYS FROM PACKAGING”

OR

“BEST BEFORE DAYS FROM MANUFACTURE”

Note:

- (a) blanks be filled up
- (b) Month and year may be used in numerals
- (c) Year may be given in two digits

(iii) On packages of Aspartame, instead of Best Before date, Use by date/recommended last consumption date/expiry date shall be given, which shall not be more than three years from the date of packing;

(iv) In case of infant milk substitute and infant foods instead of Best Before date, Use by date/recommended last consumption date/expiry date shall be given.

Provided further that the declaration of best before date for consumption shall not be applicable to

- (i) wines and liquors
- (ii) alcoholic beverages containing 10 percent or more by volume of alcohol.

Provided further that above provisions except net weight/net content, nutritional information, manufacturer's name and address, date of manufacture and “best before” shall not apply in respect of carbonated water (plain soda and potable water impregnated with carbon dioxide under pressure) packed in returnable glass bottles

11. Country of origin for imported food:

- (i) The country of origin of the food shall be declared on the label of food imported into India.
- (ii) When a food undergoes processing in a second country which changes its nature, the country in which the processing is performed shall be considered to be the country of origin for the purposes of labelling.

12. Instructions for use:

- (i) Instructions for use, including reconstitution, where applicable, shall be included on the label, if necessary, to ensure correct utilization of the food.

2.3: Manner of declaration

2.3.1: General Conditions

1. Any information or pictorial device written, printed, or graphic matter may be displayed in the label provided that it is not in conflict with the requirements of these Regulations.

2. Every declaration which is required to be made on package under these regulations shall be:

- (i) Legible and prominent, definite, plain and unambiguous
- (ii) Conspicuous as to size number and colour,
- (iii) as far as practicable, in such style or type of lettering as to be boldly, clearly and conspicuously present in distinct contrast to the other type, lettering or graphic material used on the package, and shall be printed or inscribed on the package in a colour that contrasts conspicuously with the background of the label

Provided that —

- (a) Where any label information is blown, formed or moulded on a glass or plastic surface or where such information is embossed or perforated on a package, that information shall not be required to be presented in contrasting colours:

(b) Where any declaration on a package is printed either in the form of a handwriting or hand script, such declaration shall be clear, unambiguous and legible.

3. No declaration shall be made so as to require it to be read through any liquid commodity contained in the package.

4. Where a package is provided with an outside container or wrapper, such container or wrapper shall also contain all the declarations which are required to appear on the package except where such container or wrapper itself is transparent and the declarations on the package are easily readable through such outside container or wrapper.

5. Labels not to contain false or misleading statements: A label shall not contain any statement, claim, design, device, fancy name or abbreviation which is false or misleading in any particular concerning the food contained in the package, or concerning the quantity or the nutritive value or in relation to the place of origin of the said food:

Provided that this regulation shall not apply in respect of established trade or fancy names of confectionery, biscuits and sweets, such as, barley, sugar, bull's eye, cream cracker or in respect of aerated waters, such as, Ginger Beer or Gold-Spot or any other name in existence in international trade practice.

2.3.2 Principal display panel: The information required under these Regulations shall be given on the principal display panel of the package or container and such information may be given in the following manner.

(a) All information should be grouped together and given at one place,

OR

The pre-printed information be grouped together and given in one place and ,

(b) Online information or those not pre-printed be grouped together in another place.

1. Area of the principal display panel

The area of principal Display panel shall not be less than —

(a) In the case of a rectangular container, forty percent of the product of height and width of the panel of such container having the largest area;

(b) In case of cylindrical or nearly cylindrical, round or nearly round, oval or nearly oval container, twenty percent of the product of the height and average circumference of such container; or

(c) In the case of container of any other shape, twenty percent of the total surface area of the container except where there is label, securely affixed to the container, such label shall give a surface area of not less than ten percent of the total surface area of the container.

Provided that in the case of package having a capacity of five cubic centimeters or less, the principal display panel may be card or tape affixed firmly to the package or container and bearing the required information under these regulations.

2.3.3 The height of numeral in the declaration

(i) The height of any numeral required under these regulations, on the principal display panel shall not be less than—

(a) as shown in Table - I below, if the net quantity is declared in terms of weight or volume and

(b) as shown in Table II below, if the net quantity is declared in terms of length, area or number.

TABLE - I When net quantity is in weight or volume

Sl. No	Weight/volume	Minimum height of numeral in mm	
		Normal case	When blown, formed Moulded, or perforated on container
1.	Upto 50g/ml	1	2
2.	Above 50g/ml upto 200g/ml	2	4
3.	Above 200 g/ml upto 1 kg/litre	4	6
4.	Above 1 kg/litre	6	8

TABLE – II When net quantity is in length, area, number

Sl. No	Area of principal display panel	Minimum height of numeral in mm	
		Normal case	When blown, formed Moulded, or perforated on container
1.	Upto 100 cms square	1	2
2.	Above 100 cms. Square upto 500 cms. Square	2	4
3.	Above 500 cms. Square upto 2500 cms. Square	4	6
4.	Above 2500 cms. Square	6	8

(ii) The height of letters in the declaration under 2.2 shall not be less than 1 mm height when blown, formed, moulded, embossed or perforated, the height of letters shall not be less than 2mm.

Provided that the width of the letter or numeral shall not be less than one-third of its height, but this proviso shall not apply in the case of numeral "I" and letters i, I & I:

Provided further that in case of label declarations required under 2.4 except in case declaration specifying instructions for use or preparation of the product, the size of letters shall not be less than 3mm.

2.4: Specific Requirements/ Restrictions on manner of labelling

2.4.1: Labelling of infant milk substitute and infant food

1. An article of infant milk substitutes /infant foods, whose standards are not prescribed under Food Safety and Standards (Food Products standards and Food Additives) Regulations, 2011 shall be manufactured for sale, exhibited for sale or stored for sale only after obtaining the approval of such articles of food and its label from the Authority.

2. Without prejudice to any other provisions relating to labelling requirements contained in these regulations, every container of infant milk substitute or infant food or any label affixed thereto shall indicate in a clear, conspicuous and in an easily readable manner, the words "IMPORTANT NOTICE" in capital letters and indicating there under the following particulars, namely:—

(i) a statement "MOTHER'S MILK IS BEST FOR YOUR BABY" in capital letters. The types of letters used shall not be less than five millimeters and the text of such statement shall be in the Central Panel of every container of infant milk substitute or infant food or any label affixed thereto. The colour of the text printed or used shall be different from that of the background of the label, container as the case may be. In case of infant food, a statement indicating "infant food shall be introduced only (after the age of six months and upto the age of two years)" shall also be given;

(ii) a statement that infant milk substitute or infant food should be used only on the advice of a health worker as to the need for its use and the proper method of its use;

(iii) a warning that infant milk substitute or infant food is not the sole source of nourishment of an infant;

(iv) a statement indicating the process of manufacture (e.g spray dried) except in case of infant foods, instruction for appropriate and hygienic preparation including cleaning of utensils, bottles and teats and warning against health hazards of inappropriate preparations, as under;

"Warning/ caution-Careful and hygienic preparation of infant foods/infant milk substitute is most essential for health. Do not use fewer scoops than directed since diluted feeding will not provide adequate nutrients needed by your infant. Do not use more scoops than directed since concentrated feed will not provide the water needed by your infant".

(v) the approximate composition of nutrients per 100 gms. of the product including its energy value in Kilo Calories/Joules;

(vi) the storage condition specifically stating "store in a cool and dry place in an air tight container" or the like (after opening use the contents within the period mentioned or the expiry date whichever is earlier);

(vii) the feeding chart and directions for use and instruction for discarding leftover feed;

(viii) Instruction for use of measuring scoop (level or heaped) and the quantity per scoop (scoop to be given with pack);

(ix) indicating the Batch No. Month and Year of its manufacture and expiry date

(x) the protein efficiency ratio (PER) which shall be minimum 2.5 if the product other than infant milk substitute is claimed to have higher quality protein;

(xi) the specific name of the food additives, if permitted, shall be declared in addition to appropriate class names.

3. No containers or label referred to in 2.4.1(2) relating to infant milk substitute or infant food shall have a picture of infant or women or both. It shall not have picture or other graphic materials or phrases designed to increase the saleability of the infant milk substitute or infant food. The terms "Humanised" or "Maternalised" or any other similar words shall not be used. The Package and/or any other label of infant milk substitute or infant food shall not exhibit the words, "Full Protein Food", "energy Food", "Complete food" or "Health Food" or any other similar expression.

4. The containers of infant milk substitute meant for (premature baby (born before 37 weeks)/low birth weight infant (less than 2500gm) or labels affixed thereto shall indicate the following additional information, namely:—

(i) the words [PREMATURE BABY (BORN BEFORE 37 WEEKS) LOW BIRTH WEIGHT (LESS THAN 2.5 KG)] in capital letters along with the product name in central panel;

(ii) a statement "the low birth weight infant milk substitute shall be withdrawn under medical advice as soon as the mother's milk is sufficiently available"; and

(iii) a statement "TO BE TAKEN UNDER MEDICAL ADVICE" in capital letters.

5. The product which contains neither milk nor any milk derivatives shall be labelled "contains no milk or milk product" in conspicuous manner.

6. The container of infant milk substitute for lactose or lactose and sucrose intolerant infants or label affixed thereto shall indicate conspicuously "LACTOSE-FREE or SUCROSE-FREE or LACTOSE and SUCROSE-FREE" in capital letters and statement "TO BE TAKEN UNDER MEDICAL ADVICE" and shall also bear the following statements, namely:—

"Lactose free Infant Milk Substitute should only be used in case of diarrhea due to lactose intolerance.

The lactose free/sucrose free Infant Milk Substitute should be withdrawn if there is no improvement in symptoms of intolerance".

7. The container of infant milk substitute meant for infants with allergy to cow's/buffalo's milk protein or soy protein or label affixed thereto shall indicate conspicuously "HYPOALLERGENIC FORMULA" in capital letters and statement "TO BE TAKEN UNDER MEDICAL ADVICE".

8. Declaration to be surrounded by line:

There shall be a surrounding line enclosing the declaration where the words "unsuitable for babies" are required to be used.

(i) Distance of surrounding line:

The distance between any part of the words "unsuitable for babies" surrounding the line enclosing these words shall not be less than 1.5 mm.

2.4.2: Labelling of edible oils and fats

1. The package, label or the advertisement of edible oils and fats shall not use the expressions "Super-Refined", "Extra-Refined", "Micro-Refined", "Double-Refined", "Ultra-Refined", "Anti-Cholesterol", "Cholesterol Fighter", "Soothing to Heart", "Cholesterol Friendly", "Saturated Fat Free" or such other expressions which are an exaggeration of the quality of the Product.

2. Every container in which solvent-extracted oil or de-oiled meal or edible flour is packed for sale shall, at the time of sale by the producer, bear the following particulars in English or Hindi (Devnagri script):—

(i) the name, trade name, if any, or description of the solvent-extracted oil or de-oiled meal or edible flour, as the case may be:

2897 GE/11-6

(ii) in the case of oil not conforming to the standards of quality for “refined” grade solvent extracted oils specified in regulation 2.2.6 (1) of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulation, 2011 for Edible vegetable oil/Vanaspati, a declaration in a type-size of not less than 50 mm, as follows shall appear on the label:

(a) “NOT FOR DIRECT EDIBLE CONSUMPTION”, in the case of oils complying with the requirements for the “semi-refined” or “raw-grade” grades of oil specified in regulation 2.2.6 (1) of Food Safety and Standards (Food Products standards and Food Additive) Regulation, 2011

(b) “FOR INDUSTRIAL NON-EDIBLE USES ONLY”, in the case of oils not complying with the requirements under item (a) above;

(iii) the name and business particulars of the producer;

(iv) the net weight of the contents in the container;

(v) the batch number, month and year of manufacture:

Provided that where solvent extracted oils are transported in bulk in rail tank-wagons or road tankers, or where de-oiled meal or edible flour is transported in bulk either for storage in silos or transferred to ship for bulk shipment, it shall be sufficient if the aforesaid particulars are furnished in the accompanying documents.

3. Every container in which solvent is packed shall, at the time of sale by the manufacturer or dealer thereof, bear the Indian Standards Institution certification mark.

4. Every container in which vanaspati, margarine, bakery shortening, blended edible vegetable oils, mixed fat spread and refined vegetable oil is packed in addition to other labelling requirements provided in these regulations shall bear the following particulars in English or Hindi in Devnagri script:

(a) The name/description of the contents, “free from Argemone Oil”;

(b) The mass/volume of the contents;

5. Every container of refined vegetable oil shall bear the following label, namely,—

Refined (name of the Oil) Oil

Provided that the container of imported edible oil shall also bear the word, “Imported”, as prefix.

6. Every package containing an admixture of palmolein with groundnut oil shall carry the following label, namely,—

BLEND OF PALMOLEIN AND GROUNDNUT OIL

Palmolein.....per cent

Groundnut oil....per cent

7. Every package containing an admixture of imported rape-seed oil with mustard oil, shall carry the following label, namely :

BLEND OF IMPORTED RAPE-SEED OIL AND MUSTARD OIL

Imported rape-seed oil.....per cent

Mustard oil.....per cent

8. Every package of vanaspati made from more than 30 percent of Rice bran oil shall bear the following label, namely :—

This package of vanaspati is made from more than 30 per cent Rice bran oil by weight

9. Every package containing Fat Spread shall carry the following labels namely:—

Milk Fat Spread

Use before

Date of packing

Total Milk Fat Content Per cent by weight.....

.....

Mixed Fat Spread

Use before

Date of packing

Per cent by weight.....

Milk Fat Content.....

Total Milk Fat Content Percent by weight.....

Vegetable Fat Spread

Use before

Date of packing

Total Fat Content Per cent by weight

10. A package containing annatto colour in vegetable oils shall bear the following label namely :—

Annatto colour in oil (Name of oil/oils) used

11. Every package containing an admixture of edible oils shall carry the following label, namely:—

This blended edible vegetable oil contains an admixture of :

(i)% by Weight

(ii)% by Weight

(Name and nature of edible vegetable oils i.e. in raw or refined form)

Date of Packing.....

There shall also be the following declaration in bold capital letters along with the name of product on front/central panel,—

NOT TO BE SOLD LOOSE

2.4.3: Labelling of permitted food colours

1. No person shall sell a permitted synthetic food colours for use in or upon food unless its container carries a label stating the following particulars:—

(i) the words "Food Colours";

(ii) the chemical and the common or commercial name and colour index of the dye-stuff.

2. No person shall sell a mixture of permitted synthetic food colours for use in or upon food unless its container carries a label stating the following particulars:—

(i) the words "Food Colour Mixture";

(ii) the chemical and the common or commercial name and colour index of the dye stuff contained in the mixture.

3. No person shall sell a preparation of permitted synthetic food colours for use in or upon food unless its container carries a label stating the following particulars:—

(i) the words "Food Colour Preparation";

(ii) the name of the various ingredients used in the preparation.

2.4.4: Labelling of irradiated Food

Irradiated foods.- The label of a food, which has been treated with ionizing radiation, shall carry a written statement indicating the treatment in close proximity to the name of the food.

In addition all packages of irradiated food shall bear the following declaration and logo, namely:—

PROCESSED BY IRRADIATION METHOD
DATE OF IRRADIATION



LICENSE NO of Irradiation Unit.....
PURPOSE OF IRRADIATION.....

2.4.5: Specific Labelling Requirements of other Products

1. Coffee-Chicory Mixture:- (i) Every package containing a mixture of coffee and chicory shall have affixed to it a label upon which shall be printed the following declaration:

Coffee blended with Chicory
This mixture contains
Coffee..... Per cent
Chicory..... Per cent

(ii) Every package containing Instant Coffee-Chicory mixture shall have affixed to it a label upon which shall be printed the following declarations;

Instant Coffee-Chicory mixture made from
blends of coffee and chicory
Coffee..... Per cent
Chicory..... Per cent

2. CONDENSED MILK OR DESICCATED (DRIED) MILK:

Every package containing condensed milk or desiccated (dried) milk shall bear a label upon which is printed such one of the following declarations as may be applicable or such other declaration substantially to the like effect as may be allowed by the State Government, namely,—

(i) In the case of condensed milk (unsweetened):

CONDENSED MILK UNSWEETENED
(Evaporated Milk) (This tin contains the equivalent) of (x)..... litres of toned milk

(ii) In the case of condensed milk (sweetened):

CONDENSED MILK SWEETENED
This tin contains the equivalent of (x)..... litres of toned milk with sugar added

(iii) In the case of condensed skimmed milk (unsweetened):

CONDENSED SKIMMED MILK UNSWEETENED

(Evaporated Skimmed Milk) This tin contains the equivalent of (x)..... litres of skimmed milk

(iv) In the case of condensed skimmed milk (sweetened):

CONDENSED SKIMMED MILK SWEETENED

This tin contains the equivalent of (x).....litres of skimmed milk with sugar added"

(v) In the case of condensed milk (sweetened and flavoured):

This has been flavoured with.....

NOT TO BE USED FOR

INFANTS BELOW SIX MONTHS

(vi) In the case of condensed milk/condensed Skimmed milk (unsweetened) Sterilised by Ultra High Temperature (UHT) treatment:

This has been sterilised by UHT Process

(vii) In the case of milk powder:

MILK POWDER

This tin contains the equivalent of

(x)..... litres of toned milk

(viii) In the case of milk powder which contains lecithin:

MILK POWDER IN THIS PACKAGE CONTAINS LECITHIN

(ix) In the case of partly skimmed milk powder :

PARTLY SKIMMED MILK POWDER

This tin contains the equivalent of

(x)..... litres of partly skimmed milk

having..... per cent milk fat

(x) In the case of skimmed milk powder:

SKIMMED MILK POWDER

This tin contains the equivalent of (x)..... litres of skimmed milk

3. The declaration shall in each case be completed by inserting at (x) the appropriate number in words and in figures, for example, "one and a half (1½)", any fraction being expressed as eight quarters or a half, as the case may be.

4. There shall not be placed on any package containing condensed milk or desiccated (dried) milk any comment on, explanation of, or reference to either the statement of equivalence, contained in the prescribed declaration

or on the words “machine skimmed” “skimmed” or “unsuitable for babies” except instructions as to dilution as follows:

“To make a fluid not below the composition of toned milk or skimmed milk (as the case may be) with the contents of this package, add (here insert the number of parts) of water by volume to one part by volume of this condensed milk or desiccated (dried) milk”.

Sweetened condensed milk and other similar products which are not suitable for infant feeding shall not contain any instruction of modifying them for infant feeding.

5. Wherever the word “milk” appears on the label of a package of condensed skimmed milk or of desiccated (dried) skimmed milk as the description or part of the description of the contents, it shall be immediately preceded or followed by the word “machine skimmed” or “partly skimmed”, as the case may be.

6. Fluid milk: — The caps of the milk bottles /pouch/tetrapack shall clearly indicate the nature of the milk contained in them. The indication may be either in full or by abbreviation shown below :

(i) Buffalo milk may be denoted by the letter ‘B’.

(ii) Cow milk may be denoted by the letter ‘C’

(iii) Goat milk may be denoted by the letter ‘G’

(iv) Standardized milk may be denoted by the letter ‘S’

(v) Toned milk may be denoted by the letter ‘T’

(vi) Double toned milk may be denoted by the letter ‘DT’

(vii) Skimmed milk may be denoted by the letter ‘K’

(viii) Pasteurised milk may be denoted by the letter ‘P’; followed by the class of milk. For example Pasteurised Buffalo milk shall bear the letters ‘PB’.

(ix) Alternatively suitable indicative colours of the packs/caps/bags shall be indicative of the nature of milk contained in them, the classification of colours being displayed at places where milk is sold/stored or exhibited for sale, provided that the same had been simultaneously intimated to the concerned Designated Officer, and information disseminated through the local media

7. Ice cream — Every dealer in ice-cream or mixed ice-cream who in the street or other place of public resort, sells or offers or exposes for sale, ice-cream or ice-candy, from a stall or from a cart, barrow or other vehicle or from a basket, phial, tray or other container used without a staff or a vehicle shall have his name and address along with the name and address of the manufacturer, if any, legibly and conspicuously ‘displayed’ on the stall, vehicle or container as the case may be.

8. Hingra — Every container containing Hingra shall bear a label upon which is printed a declaration in the following form, namely,—

“This container contains Hingra (Imported from Iran/Afghanistan) and is certified to be conforming to the standards laid down in the Food Safety and Standards regulations”

9. Light Black Pepper:- Every package containing light black pepper shall bear the following label in addition to the Agmark seal and the requirements prescribed under regulation 2.2.1 and 2.2.2 of these regulations:

Light Black Pepper (Light berries)

10. Every package containing “Cassia Bark” shall bear the following label.

CASSIA BARK (TAJ)

11. Every package containing “CINNAMON” shall bear the following label

CINNAMON (DALCHINI)

12. Every package of chillies which contains added edible oil shall bear the following label:

CHILLIES IN THIS PACKAGE CONTAINS AN ADMIXTURE OF NOT MORE THAN 2 PERCENT
OF.....(NAME OF OIL) EDIBLE OIL

13. Every package of ice-cream, kulfi, kulfa and chocolate ice-cream containing starch shall have a declaration on a label as specified in regulation 2.7.1(2)

14. Masala: Every package of mixed masala fried in oil shall bear the following label:

MIXED MASALA (FRIED)
THIS MASALA HAS BEEN FRIED IN
(Name of the edible oil used)

15. Compounded Asafoetida: Every container of compounded asafoetida shall indicate the approximate composition of edible starch or edible cereal flour used in the compound, on the label.

16. Every package containing maida treated with improver or bleaching agents shall carry the following label, namely,-

WHEAT FLOUR TREATED WITH IMPROVER/BLEACHING AGENTS, TO BE USED BY BAKERIES ONLY

17. Unless otherwise provided in these regulations, every package of malted milk food which contains added natural colouring matter except caramel, shall bear the following label, namely,-

MALTED MILK FOOD IN THIS PACKAGE CONTAINS
PERMITTED NATURAL COLOURING MATTER

18. Every advertisement for and/or a package of food containing added Monosodium Glutamate shall carry the following declaration, namely,-

This package of (name of the food contains added)..... MONOSODIUM GLUTAMATE
NOT RECOMMENDED FOR INFANTS BELOW -12 MONTHS

19. Every container of refined salseed fat shall bear the following label, namely,-

REFINED SALSEED FAT FOR USE IN BAKERY AND CONFECTIONERY ONLY

20. Every container or package of table iodised salt or iron fortified common salt containing permitted anticaking agent shall bear the following label, namely,-

IODIZED SALT / IRON FORTIFIED COMMON SALT* CONTAINS PERMITTED ANTICAKING AGENT

* Strike out whichever is not applicable

21. Every container or package of iron fortified common salt shall bear the following label, namely,—

IRON FORTIFIED COMMON SALT

22. Every package of Dried Glucose Syrup containing sulphur dioxide exceeding 40 ppm shall bear the following label namely,—

DRIED GLUCOSE SYRUP FOR USE IN SUGAR CONFECTIONERY ONLY

23. A package containing tea with added flavour shall bear the following label, namely,—

“FLAVOURED TEA” (common name of permitted flavour/percentage)
Registration No....

24. Every package of food which is permitted to contain artificial sweetener mentioned in table given in regulation 3.1.3 (1) of Food Safety and standards (Food Products standards and Food Additive) Regulations, 2011 and an advertisement for such food shall carry the following label, namely,—

- (i) This contains (Name of the artificial sweeteners).
- (ii) Not recommended for children.
- (iii) (a) *Quantity of sugar added gm/100 gm.
- (b) No sugar added in the product.
- (iv) *Not for Phenylketonurics (if Aspartame is added)

*strike out whatever is not applicable

25. In addition to the declarations under regulation 2.4.5 (24 and 26), every package of food which is permitted to contain artificial sweetener mentioned in table in regulation 3.1.3 (1) of Food Safety and Standards (Food Products standards and Food Additive) Regulations, 2011 and an advertisement for such food shall carry the following label, namely,—

CONTAINS ARTIFICIAL SWEETENER AND FOR CALORIE CONSCIOUS

26. The declaration under regulation 2.4.5 (25) shall be provided along with name or trade name of product and shall be half of the size of the name/ trade name. The declaration may be given in two sentences, but in the same box.

27. Every package of Aspartame (Methyl ester), Acesulfame K, Sucralose and Saccharin Sodium, Neotame marketed as Table Top Sweetener and every advertisement for such Table Top Sweetener shall carry the following label, namely,—

- (i) Contains..... (name of artificial sweetener)
- (ii) Not recommended for children

Provided that the package of aspartame (Methyl ester), marketed as Table Top Sweetener and every advertisement for such Table Top Sweetener shall carry the following label, namely,—

“Not for Phenylketonurics”

28. Every package of food which is permitted to contain a mixture of Aspartame (Methyl Ester) and Acesulfame Potassium Sweeteners mentioned in the Table given in regulation 3.1.3(1) of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulation, 2011, shall carry the following label, namely,—

This (Name of food) contains contains an admixture of Aspartame (Methyl Ester and Acesulfame Potassium. Not recommended for children.

- (a) *Quantity of sugar added..... gm/100gm,
- (b) No sugar added in the product.
- *Not for Phenylketoneurics (if Aspartame is added)

*strike out whatever is not applicable

29. Every package of food which is permitted to contain a mixture of Acesulfame Potassium and Sucralose sweeteners mentioned in the Table given in Regulation 3.1.2 (1) of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulation, 2011 shall carry the following label, namely,—

- (i) This(Name of Food) contains a mixture of Sucralose and Acesulfame Potassium;
 (ii) Not recommended for children;
 (iii) *(a) Quantity of sugar added.....gm/100gm;
 *(b) No sugar added in the product;

(*Strike out whichever is not applicable)

30. Every package of Pan Masala and advertisement relating thereto; shall carry the following warning, namely,—

Chewing of Pan Masala is injurious to health

31. Every package of supari and advertisement relating thereto shall carry the following warning in conspicuous and bold print, namely,—

Chewing of Supari is injurious to Health

32. Every package of fruit squash by whatever name it is sold, containing additional sodium or potassium salt shall bear the following label, namely,—

IT CONTAINS ADDITIONAL
SODIUM/POTASSIUM SALT

33. Every package of Cheese (hard), surface treated with Natamycin, shall bear the following label, namely,—

SURFACE TREATED WITH NATAMYCIN

34. Every package of Bakery and Industrial Margarine made from more than 30 per cent of Rice Bran Oil shall bear the following label, namely,—

This package of Bakery & Industrial Margarine is made from more than 30 per cent of Rice Bran Oil by Wt.

35. Every container or package of flavour emulsion and flavour paste meant for use in carbonated or non-carbonated beverages shall carry the following declaration, in addition to the instructions for dilution, namely,—

FLAVOUR EMULSION AND FLAVOUR PASTE FOR USE IN CARBONATED OR
NON-CARBONATED BEVERAGES ONLY

36. Every package of drinking water shall carry the following declaration in capital letters having the size of each letter as prescribed in Regulation 2.3.3 ;

PACKAGED DRINKING WATER

One time usable plastic bottles of packaged drinking water shall carry the following declaration.

CRUSH THE BOTTLE AFTER USE

37. Every package of mineral water shall carry the following declaration in capital letters having the size of each letter as prescribed in regulation 2.3.3 ;

NATURAL MINERAL WATER

One time usable plastic bottles of mineral water shall carry the following declaration.

CRUSH THE BOTTLE AFTER USE

38. Every package of food having added caffeine, shall carry the following label, namely,—

“CONTAINS CAFFEINE”

Provided if caffeine is added in the products, it shall be declared on the body of the Container/bottle.

Provided also that in case of returnable glass bottles, which are recycled for refilling the declaration of caffeine, may be given on the crown.

39. Every package of Low Fat Paneer/ Chhana shall carry the following label, namely,—

LOW FAT PANEER / CHHANA

40. Every package of Cheese(s), if coated/packed in food grade waxes polyfilm/wrapping of cloth, shall bear the following label, namely,—

REMOVE THE OUTER PACKING BEFORE CONSUMPTION

41. Every package of Frozen Desert / Frozen Confection shall bear the following label, namely,—

Frozen Desserts / Frozen Confection Contain Milk Fat* / Edible Vegetable Oil* /
and Vegetable Fat*

*strike out whatever is not applicable

42. Every container or package of common salt shall bear the following label, namely,—

COMMON SALT FOR IODISATION* / IRON FORTIFICATION* / ANIMAL USE* / PRESERVATION / MEDICINE* /
INDUSTRIAL USE*

*strike out whichever is not applicable.

43. Every package of biscuits, bread and cakes containing Oligofructose shall bear the following declaration, namely,—

Contains Oligofructose (dietary fiber) — gm/100 gm

44. Every package of fresh fruit if coated with wax shall carry the following label, namely,—

Coated with wax (give name of wax)

45. Gelatin meant for human consumption should be labeled as "Gelatin Food Grade"

46. Every package of food containing Polyols shall bear the following label,—

Polyols may have laxative effects

47. Every package of food containing Polydextrose shall bear the following label:-

Polydextrose may have laxative effects

2.4.6: Specific restrictions on Product labels

(1) Labels not to contain reference to Act or rules or regulations contradictory to required particulars :- The label shall not contain any reference to the Act or any of these regulations or any comment on, or reference to, or explanation of any particulars or declaration required by the Act or any of these regulations to be included in the label which directly or by implication, contradicts, qualifies or modifies such particulars or declaration.

(2) Labels not to use words implying recommendations by medical profession: - There shall not appear in the label of any package, containing food for sale the words "recommended by the medical profession" or any words which imply or suggest that the food is recommended, prescribed, or approved by medical practitioners or approved for medical purpose.

(3) Unauthorized use of words showing imitation prohibited

1. There shall not be written in the statement or label attached to any package containing any article of food the word 'imitation' or any word, or words implying that the article is a substitute for any food, unless the use of the said word or words is specifically permitted under these regulations.

2. Any fruit syrup, fruit juice, fruit squash, fruit beverages, cordial, crush or any other fruit products standardised under Food Safety and Standards (Food Products standards and Food Additives) Regulations, 2011 which does not contain the prescribed amount of fruit juice or fruit pulp or fruit content shall not be described as a fruit syrup, fruit juice, fruit squash, fruit beverages, cordial, crush or any other fruit product as the case may be.

3. Any food product which does not contain the specified amount of fruit and is likely to deceive or mislead or give a false impression to the consumer that the product contains fruit, whether by use of words or pictorial representation, shall be clearly and conspicuously marked on the label as 'ADDED (NAME OF THE FRUIT) FLAVOUR'.

4. Any food product which contains only fruit flavours, whether natural flavours and natural flavouring substances or nature identical flavouring substances, artificial flavouring substances as single or in combination thereof, shall not be described as a fruit product and the word "ADDED" (NAME OF FRUIT) FLAVOUR shall be used in describing such a product;

5. Carbonated water containing no fruit juice or fruit pulp shall not have a label which may lead the consumer into believing that it is a fruit product.

6. Any fruit and vegetable product alleged to be fortified with vitamin C shall contain not less than 40 mgms. of ascorbic acid per 100 gm. of the product.

(4) Imitations not to be marked "pure"

The word "pure" or any word or words of the same significance shall not be included in the label of a package that contains an imitation of any food.

(5) Labelling prohibitions for Drinking Water (Both Packaged and Mineral Water)

(i) No claims concerning medicinal (preventative, alleviative or curative) effects shall be made in respect of the properties of the product covered by the standard Claims of other beneficial effects related to the health of the consumer shall not be made.

(ii) The name of the locality, hamlet or specified place may not form part of the trade name unless it refers to a packaged water collected at the place designated by that trade name.

(iii) The use of any statement or of any pictorial device which may create confusion in the mind of the public or in any way mislead the public about the nature, origin, composition, and properties of such waters put on sale is prohibited.

2.5: Restriction on advertisement

There shall be no advertisement of any food which is misleading or contravening the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) or the rules/regulations made thereunder.

2.6: Exemptions from labelling requirements-**2.6.1**

1. Where the surface area of the package is not more than 100 square centimeters, the label of such package shall be exempted from the requirements of list of ingredients, Lot Number or Batch Number or Code Number, nutritional information and instructions for use, but these information shall be given on the wholesale packages or multi piece packages, as the case may be.

2. the 'date of manufacture' or 'best before date' or 'expiry date' may not be required to be mentioned on the package having surface area of less than 30 square centimeters but these information shall be given on the wholesale packages or multi piece packages, as the case may be;

3. in case of liquid products marketed in bottles, if such bottle is intended to be reused for refilling, the requirement of list of ingredients shall be exempted, but the nutritional information specified in regulation 2.2.2 (4) these regulations shall be given on the label.

Provided that in case of such glass bottles manufactured after March 19, 2009, the list of ingredients and nutritional information shall be given on the bottle.

4. in case of food with shelf-life of not more than seven days, the 'date of manufacture' may not be required to be mentioned on the label of packaged food articles, but the 'use by date' shall be mentioned on the label by the manufacturer or packer.

5. In case of wholesale packages the particulars regarding list of ingredients. Date of manufacture/ packing, best before, expiry date labelling of irradiated food and , vegetarian logo/non vegetarian logo, may not be specified.

2.7: Notice of addition, admixture or deficiency in food**2.7.1**

1. Every advertisement and every price or trade list or label for an article of food which contains an addition, admixture or deficiency shall describe the food as containing such addition, admixture or deficiency and shall also specify the nature and quantity of such addition, admixture or deficiency and no such advertisement or price or trade list or label attached to the container of the food shall contain any words which might imply that the food is pure:

Provided that for purpose of this regulation the following shall not be deemed as an admixture or an addition, namely:—

(a) salt in butter or margarine;

(b) vitamins in food.

2. Every package, containing a food which is not pure by reason of any addition, admixture or deficiency shall be labelled with an adhesive label, which shall have the following declaration:

Declaration

This (a) contains an admixture/addition of not more than (b) per cent of (c).....

(a) Here insert the name of food.

(b) Here insert the quantity of admixture which may be present.

(c) Here insert the name of the admixture or the name of ingredient which is deficient.

Where the context demands it, the words 'contains an admixture of' shall be replaced by the words 'contains an addition of' or 'is deficient in'.

3. Unless the vendor of a food containing an addition, admixture or deficiency, has reason to believe that the purchaser is able to read and understand the declaratory label, he shall give the purchaser, if asked, the information contained in the declaratory label by word of mouth at the time of sale.

4. Nothing contained in regulation 2.7.1 shall be deemed to authorize any person to sell any article of food required under the Act or these regulations which is to be sold in pure condition, otherwise than in its pure condition.

5. Nothing contained in regulation 2.7.1 shall apply in the case of sweets, confectionery, biscuits, bakery products, processed fruits, aerated water, vegetables and flavouring agents.

V. N. GAUR, Chief Executive Officer

[ADVT. III/4/187-O/11/Exty.]